

Ref No. 3207/25

17 July 2025

The Department of Corporate Services BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400001 (Scrip code : 500245)

Dear Sir / Madam,

Subject : Notice to the Members published in the newspapers

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; we submit the copy of the Notice to the Members regarding opening of special window for re-lodgement of transfer requests in respect of equity shares held in physical form.

The aforesaid notice has been published on 17 July 2025 in following newspapers :

- Financial Express (English language newspaper) in all India editions and
- Loksatta (Marathi language newspaper) in Pune edition.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Kirloskar Ferrous Industries Limited

Mayuresh Gharpure Company Secretary

Encl : a/a


Kirloskar Ferrous Industries Limited

A Kirloskar Group Company

Registered Office : 'One Avante', Level 5, Karve Road, Kothrud, Pune 411038, Maharashtra Telephone : +91 (20) 69065040 Email : kfilinvestor@kirloskar.com Website : www.kirloskarferrous.com CIN : L27101PN1991PLC063223

THURSDAY, JULY 17, 2025

24



TATA ELXSI LIMITED Regd. Office: ITPB Road, Whitefield, Bengaluru, Karnataka, 560048, Figure order to solve the following share certificates hashave been reported as lostimisplaced and the Company Intends to issue duplicate certificates in levels of thereof, in due course. Any present who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereol.
 Name of the Shareholder
 Folio No.
 No. of shares (F.V. Rs 10⁴)
 Certificate No.(s)
 Distinctive No.(s)

> केनरा बैंक Canara Bank 🔬 Rilenz Syndicate CANARA BANK REGIONAL OFFICE NAVI MUMBAI CIRCLE OFFICE BLDG C-14 G BLOCK 8° FLOOR A WING BKC BANDRA EAST MUMBAI – 400051 f: ROILEGAL/SARFAESI6//W/2025-26 Date :

POSSESSION NOTICE

Des :: 150 NUT 2023 Des :: 100 NUT 2023 Des :: 100 August 2015 Des :

protected. The borrows in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Cranars Bank, Ghansell Branch for an amount of Rs. 34,40,181.86 (Rupees Thirty Four Lakh Forty Thousand One Hundred Eighty One and Paise Eighty Six Only) and Interest thereon.

and interest thereon.
Discription of the Immovale Property
EAT No 24, 84 CON FLOOR BILL BOINK NO *-8-7". STREES DISTURBANC CHS ITCJ AT GHARONDA 1, SECTOR 9, GHANSOLI, NAVIMUMBAI - 408761 Admessing 262, 82, FL Bull Up Area Towards North - Flat No 201 Towards North - Flat No 201 Towards North - Flat No 201 Towards Subtract - Bulk No 201 Within the Registration Sub-district of: Thane

DELTA MANUFACTURING LIMITED Registered Office: R.87, MDC, Amhari, Nashik - 422013 CIN No. 1.22109MH1982PLC028280 Tel No. 253.268228 Fax No. 255.2382926 Email ID: secretariat@dmhtl.a Website: www.deitamiagnets.com NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)

number owner, vipa is order dated 2/* December 2019 has sanctineed th (cheme of Analgamation between Arrow Textles Limited, MMG India Privat Imited). The shareholders of Arrow Textles Limited (anagamate (corpany), were alloted shares of Deta Manufacturing Limited) (corpany), were alloted shares of Deta Manufacturing Limited (anagamate Corpany), were alloted shares of Deta Manufacturing Limited (anagamate Corpany), were alloted shares of Deta Manufacturing Limited (anagamate Corpany), were alloted shares of Deta Manufacturing Limited (anagamate (Cri T).

Company) were altoted shares of Deta Manufacturing Lumiad formery homens ableta Magnets Limited) in the proportion a septometally the Hoh bite NCLT. Pursuant is Section 124 of the Companies Act, 2019 read with the LEF Accounting Audit. Transfer and Refund) Rules, 2016, (the rules) as amended with the Nicken Action and Polytoches 2016, (the rules) as amended withich Dividend has remained understand and upped for seven consecutive rules of enrors. Unter investor Education and Polytoches 2019, Polytoches ware or more. Unter investor Education and Polytoches 2019, Polytoches rules of enrors and the anticele constrained with belief harding divident and and polytoches were consecutive years or more is a sunday. 2th November 2029, Pursuant to the sale Rules, whose shares have become used for tumoff or alcohastera, in respect of whose shares have become used for tumoff or alcohastera, in respect of whose shares have become used for tumoff or alcohastera, and tumoff the work of more than the strength of the strength of the safe Rules, werdeling and the strength of the strength of the safe Rules of upploaded the details of such stare/holders on its website Viz-www.delingmangets.com Nation is further given to the stare/holders in the strength of and the dud data. In Dividend and the there is the IEFF. The same black rule and the Dividend rules in the process for branchedres reso such therebiders to IEFF Automity. On transfer of the Dividend rules the process for branchedres of such rules and the Dividend rules the strengt is the rules of a same black rule and gate the Dividend rules the strengt of the same black rules and provident industry of the strengt of a same black rules and strengt rules and the strengt of the same black rules and the strengt is an application to IEFF is form IEFF-4 as are the Rules. The same for the strengt of the same rules of the contact, read comparises in maintee and the strengt of a size strengt of a size. The contage is the the industria the strengt of a sis an enclosed below. Purce Stare

form you that the Hon'ble Nat

CHETNA CHAMPAKLAL EXC0001734 DOSHI

Date: 16/07/2025 Place : Mumbal

Date : 14.07.2025 Place : Navi Mumb

NCLT

1001734 100 248325 11759911 - 11760010 100 248325 17002531 - 17002630

Shareholder: CHETNA CHAMPAKLAL DOSH

Date : 14.07.2025

AUTHORISED OFFICER CANARA BANK

			mpl@gmail.cont		
Liq Pro BA	E-AUCTION - SALE OF a d Acsets owned by HAJAT WIRES P iddation Estate under see 35(t) of IB cess Regulations. E-Auction will be co SIS. "WHATEVER THERE IS BASIS" AP SIS.	RIV/ C 2	TE LIMITED (In L 16 read with Re cted on "AS IS W	Iquidation) for gulation 33 of HERE IS1, "AS	Liquidation IS WHAT IS
	ite and Time of Auction		07/2025 From - 1		:00 P.M.
	ist date of Submission of	24.	07.2025 by 6:00	PM.	
	AD / PQ documents		22		
10	spection Date and Time		m 17-07-2025 to A.M. to 5 PM.)	24-07-2025	
Sr. No.	Asset Description		Reserve price (Rs.)	EMD Amount	Bid Increment
1.	Company as going concern, exc complete Mumbai unit and P&M Faridabad #	ept at	39,72,00,000/-*	39,72,00,00/-	5,00,000/-
2	Plant and Machinery located at plot N 74 MIDC Industrial Area, Taloja, Raig Maharashtra, 410208, India on "a: where is", "as is what is basis", "what there is basis" and "no recourse basis"	arh, s is ever	1.53,66,000/-*	1,53,66,00/-	50,000/-
3.	SMW (Diesel) Car - 2011 model	-	4.25,000	42,500/-	5.000/-
40	Land and Building situated abplot no. 2 Sector-24. Fandabad-121001. Harva		Conversion State and a	a marked	Alway 1
pre	India having Plot Awa- 8268-36 sgm Excluding taxes, lovies, charges, du miums etc. No. representation as to wa	ties, tirram	transfer fees, st ties and indemniti	es shall be mad	stration fee, e.
2. 3. 4. 5. 7. 7.	Induitivery PIM Annu-2870-35 Stemp Technique transe, Nous, Campes, Au, Annue Annue Annue Annue Annue Annue Annue In case Company and provide and the In case Company and the Annue Ann	ties, irran irran irran irran giste e n nobii t Lii onic of Bi 07.2 irren rtaki web an w Cod ney i 1 or	transfer fees, st se and indemnitis se off there item Mon same days as under: through thitss/ as it all item of the second secon	amp duly, regises solate made s 344 gets au bbit baarkinet.c. tact for s 200220. udhir Kalra a qualified blobe s & other docum ils of the asse terms and conc blobanket.c. blobanket.c. forfeited. or modify any	stration fee, e. tomatically am by using u p p or 1 t email ID s only, sents by the sents by the sents by the strong of the my automatic sents by the strong of the sents by t
2 3. 4 5. 7 8.	Induitiverge PIC Anno-2020 35 Steps: Charding Tester, Nova, Charges, Gu, Anno, Anno	ties, irran 12P iare giste e n nobii 1 Lii onic of Bi 07.2 irren rtaki web an w Cod ney i 1 Or	transfer fees, st se and indemuits s sold there item Mon same day. as under: through https://t a upication: Mo. 4 and 200 a application: Mo. 2 mode only and by a application for upication: Mo. 2 mode only and by a application for upication	amp duty, regises shaft be made s 364 gets au bits baankinet.cc tato f for s 20220 s 20220 auditir Katra counties of the asse terms and conce bit baankinet.co termis and conce bit baankinet.co remosity any litions of the ss	stration fee, e. tomatically am by using up p or t : 1 email ID s only. sents by the ts, online e- hitions of the my eauton- ts, online e- thing and the set from any hat if found r (erms, and alle from the
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1	Induitivery PIC Amin-2270-35 Storm, Techniques, Campres, du Amin, Alexandro La Amine, Sectoring Tester, Neurosci, Campres, du Amines, Sectoring Tester, Neurosci, Campres, du Amines, Sectoring Tester, Neurosci and Cambridge and Cambridge Interneting Delice and Cambridge and Cambridge Interneting Delice and Cambridge and Cambridge and Cambridge and Cambridge Cambri	tios, irran vm 1 12P i are e n mobili 1 Li onic of Bi 07.2 umet rtaki web an u Cod ney 1 of plet ction	transfer fees, at sea and indemnition sea and indemnition sea and indemnition sea and indemnition and sea and sea and sea and sea and sea and sea and the containing detain the on indexistic and indexistic and sea and sea and sea and detained and sea and sea and sea and detained and sea and sea and sea and sea and detained and sea and se	amp duly, regises solar be may solar gets au bit baanknet of ta of for s 20220. uudhir Kalra a qualified blobde & other docum is of the asset terms and core bit baanket co- to forfeited. or motify any litions of the s S for tor kaja W	stration fee, c. tomatically am by using u p p or t. t email ID s only, sents by the ts, online e- ficions of the mixeauction- er from any hat if found r terms, and le from the suthir Kalra res Pvi Lt4 2018/11314



POSSESSION NOTICE

But C. BART, KANNAL ALON DES, THAN, STRANDROM CHARDAN, WILL
 DATE, MARKAL AND DES, THAN, STRANDROM CHARDAN, WILL
 WHERRAS The undersigned bring the Autorized Officer of SVC Coopenative Bank Link and entry for the source of parties content of source of the sou

Crean would be given for any sums paid by the controvers. The Borrowers/Guarantors/Mortgagor's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

redeen the security asset.
Description OT The Property
Stop No. 5 annexating 201 sqtt, Bull up area on the Ground Boor of the add bulking storm on BLTES GEELPC COOPERATIVE HOUSENGOODEN To add bulking storm on BLTES OFELPC COOPERATIVE HOUSENGOODEN To add bulking storm on BLTES OFELPC COOPERATIVE HOUSENGOODEN To add bulking storm on BLTES OFELPC COOPERATIVE HOUSENGOODEN The Bulking consists of Courd Play House Known in Table. Stormal and noting the Registration Descing 3 561, Inite manner of NuL starm Assame Decadings of construct on G Adding 3 561, Inite manner O MuL starm Assame Decadings

Date: 16/07/2025 Mr. Rohan R. Pai Place: Saibaba Nagar, Borivali West Senior Manager & Authorised Officer

FINANCIAL EXPRESS

arbank,com

07/07/2016 Us:13(2) Date of Physical Possession 14.07.2025 Receivable Amt. Rs:25,29,053.33/-(14.07.2025 plus inter

Authorised Officer GS Mahanagar Co-Op. Bank Ltd. Mumbai

FORM NO. MC36 (Persuent to Inde 38 the Companies Incorporation Relex. 2114) Before the Regional Director Matters Region, Ministry of Corporation (Antise Section 13 of the Company Section 13 of the company Section 13 of the Company Incorporation (% CS14) (AND In the matter of Section 13 AND International AND Inter

having its Registered Office at B-406 CRYSTAL PLAZA B WING 4TH FLOOR NEW LINK ROAD ANOHERI (W) MUMBAT 400053

PETITIONER

pilet form or cause to be deviced or scene registered post of his/her objections ported by an afficianil stating the nature of the interest and grounds of opposition to Regional Director, Western Region, Evenst, Filor, 100 Marina Drive, Murris-MO002 arganta with Toutene days of the date of licitation of this notice with a copy to the licitation of this notice with a copy to the licitation company at its registered office at address mentioned balow.

Registered Office: 8.405 CRYSTAL PLAZA E WING4TH FLOOR NEW LINK ROAD. ANDHERI (W), MUNIBAI 400053 For and an behalf of the Petitioner EARTH GENIX PRO_PRIVATE_LIMITED

Date:17.07.2025 Place: Mumbai

DIRECTOR SANJEEV JAIN DIN: 00784748



WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

Shivagrico Implements Ltd. Ch: 1289100H1979C021212 Regd 01: 4-1, dant Ar, 281, Trafes Oce, Manda-400007, 181- 23830302 Email: stvimplgshaypico.in Website: www.strivagrico.in NOTICE 0-0 647tH ANNUAL GENERAL MEETING. EVOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE DATES EVOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE DATES TE instead-unione that 646: Annual Cale Mathem CAIN(1) of a Commen-tion of the Addition of the Commen-tion of the Commentioned Mathem CAIN(1) of a Commen-tion of the Commentioned Mathem CAIN(1) of a Commen-tion of the Commentioned Mathem CAIN(1) of a Commen-tion of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commention of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commen-Mathematica (1) of the Commentioned Mathematica (1) of the Commentioned 007, Tel: 23893022/23

The provide section of the section o For Shivagrico Impler

Sd-Jinal Joshi Company Secretary & Compliance Officer



Place: Mumbai Date: 17^e July, 2025 ----

Company Secretary ACS No: 54631 ----

For Delta Manufacturing Lin

epaper.financialexpress.com

Sd Madhuri Pav

-Pune

राष्ट्रीय				Place
	व कंपनी कायदा न्यायापि मुंबई खंडपीठ III	ाकरणासमोर		Dated
कंपनी योजना या कंपनी	चिका क्रमांक सी.पी.(सी योजना अर्ज क्रमांक २७/	१ए)/१२०/एमबी/ २०२५ एमबी/२०२५		
कंपनी कायदा, २०१३ च्या क (जनजोन	लम ६६ सह वाचले जाण राजराग आणि प्रकरीकल	रे कलम २३० ते २३२ च्य फ जिल्ला २०००		
्रावचाव, थरवू टेक्नॉलॉजिज प्रायकेट लिभिरं एआय प्रायखेट लिभिटेड ("इस्तां भागधारक, कर्जरोखे धारळ आणि	आणि डड ("हरतांतरनकर्ता कंपनी" तरणीय कंपनी" / "टम्प्री ग	/ "प्रथम याचिकाकर्ता कंपनी") : चिकाळला कंप्रनी") - आणि लग	भागि लेन्ट्रा चे संबंधिन	1.40
		ल एकत्रीकरण (शोषणाद्वारे वि	लीनीकरण)	Pho
थरवू टेक्नॉलॉजीज प्रायरहेट लिगि कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत स्थ जिचे नॉदणीकृत कार्यालय २०२३	मेटेड गपन झालेली कंपनी,)			विक्लारिये इंटरेक
जिब नावण कृत कावालय २०२३ बालेवाडी, बालेवाडी डिंजवडी रोड, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत, ४१९८ CIN: U72900PN2015PTC22	भर टक पाक, इ.१७९ -) आणेर गाव, पुणे, -) ४४५ येथे आजे		र्ता कंपनी /	सिक्युरिटी इंटरेस्ट फायनॅंच्शिअल याद्वारे सर्वसाधारू
लेन्टा एआस प्रासदेह लिमिटेड		पहिली यायिका	कर्ता कंपनी	मोतीलाल ओस बांच्याद्वोरे कर्जाच्य जे काही आहे
कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत रूथ जिसे नोंदणीकन कार्यालय २०२ अ	सर टेक पार्क 3 974			ज काहा आहे' यसुलीसाती, सिक तपशीलानुसार "अ
बालेवाडी, बालेवाडी डिंजवढी रोड, हवेली शहर, महाराष्ट्र, भारत, ४९ CIN: U72900PN2018PTC17	बाणेर गाव, पुणे,) १०४५ येथे आहे.)	हस्तांतरण वृत्तरी याचिका		ई-लिलाचा
	याचिकेच्या सनावणीची	संचना		अ. कर्जट इ 1. कर्जरखाते
कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम नियम, २०१६ सह वाचले जाणारे आणि लेन्द्रा एआय प्रायखेट लिमिटे त्यांचे संबंधित भाषार्थ्या कु कोर्रासे	२३० ते २३२ अंतर्गत, के संयुक्त कंपनी योजना याचिव	ानी (तडजोड, व्यवस्था आणि प ग; धारावू टेक्नॉलॉजीज प्रायक	(कत्रीकरण) ट सिमिटेड	LXCHA0
ज्याणे लन्दा एकाय प्रायखटालानट त्यांचे संबंधित भागधारक, कर्जरोस विलीनीकरण) योजनेला मंजरी ।	७ (एकात्रसमण या।यकाकस । धारक आणि धनको ("योज देग्यासाठी यायिकाकार्या वं	कपन्धा गरुजून आव्यवत्था जा ना") यांच्यातील एकत्रीकरण (गि पन्धांनी माननीय राष्ट्रीय कंप	ताल) आणि वेसर्जनाद्वारे नी कायदा	कर्जवारः स् सह-कर्जव
त्याव स्वाधात भागपालं, क्याराख बिलीमीकरण) योजनेला मंजुरी न्यायाधिकरण, मुंबई स्वंडपीठ (ए. २०२५ रोजीच्या आदेशाद्वारे ती स्ट योजना याधिका ५ ऑगस्ट २०३ प्लर्जीएलटी मुंबई खंडणीकाच्या खं	स्तीएलटी') समोर सादर के रीकारली व तो आदेश २७ जू	नी आणि माननीय एनसीएलटी न २०२५ रोजी प्राप्त झाला. उप	ने १६ जून रोक्त कंपनी	कर्ज खाते LXCHA0
याजना यााचका ५ आगस्ट २०२ एनसीएलटी मुंबई खंडपीठाच्या खं आहे.	१५ राजा सकाळा १०:३० डपीवना। समोर पुढील विचा	वाजता किया त्यानंतर लवकर 11र्थ सुनावणीसाठी निश्चित करण	च माननाय यात आली	शाखाः : च कर्जवारः : सह-कर्जवा
जात. जर कोणीही संबंधित व्यक्ती कंपने त्याने/तिने/त्यांनी कंपनी योजनेच्य	ो योजनेच्या याचिकेला पार्टि । याचिकेच्या सनावणीसाती	बा किंवा विशेध करू इच्छित निक्रित केलेल्या तास्प्रेच्या स	असेल, तर फजेच ०५	सह-कजदा ई-लिलावाच्या ३
जर कोणीही संबंधित व्यक्ती कंपने त्याने/तिनेतयांनी कंपनी योजनेव्य ऑगस्ट २०२५ च्या दोन त्याच्या/तिष्या/त्यांच्या हेतृषी सूषन याचिकेत्ता विरोध ळक्त इच्छित अ	देवसः आधी, [°] त्याच्या/तिर 1 खाली दिलेल्या पत्त्वावरः मा	यात्यांच्याः वकिलाने स्वाध ड्यायी, जर संबंधित व्यक्ती कंपर्न	री केलेली 1 योजनेच्या	महिती आणि सम मेवा प्रदेश से 2
				पोर्टलयर सिलाया- 9763155455,
संयुक्त कंपनी योजनेच्या याचिकेची शुल्क मरून आवश्यक असलेल्या व	प्रत याचिकाकत्यां कंपन्याच्य गेणत्याही व्यक्तीला दिली जाई	ा अधिकृत प्रतिनिधीकङ्ग त्यार ज. 	सर्वे विहित	केंद्रीकृत मदत कें / बोसीयतंत वर प्रेण्यात वेपाखा ई-
विनांक १७ जुलै, २०२५		याचिकाकर्त्या कंपन्य केतकी	च्याक्षरी शिराळकर	/ बोलीदार्यना आप जयप्रीम आणि उल
	पत्ता: २०२ अगर टेक पार्क	ईमेल आयढी: info@ ३१/५ बालेयाठी, बालेवाठी हि	glentra ai जवडी रोड,	जरील तपशीलजार कोणतेही कारण न
	बाजेर गाव, पू	णे, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत,	899084	
				पराल्य खरवचर 19 लागतील लाग् लिलाबात डेवलेले करण्यापूर्वी त्यांची नाही, फिनिक्सचे
ऋण युनिट क्र. ३०७ ते ३१०, ३रा मज	ा वसुली न्यायाधीव ला, काकडे बिझ आयकॉन		199004	गास, 15:199सस्य दिवाळखोगे संहित दस्तऐमळांसह अस्
	Case No.: OA/327/	2022		ठिकाणः पुणे, नारीरवः : 17.07.
सदर कायद्याच्या कलम १९, उ १९९३ च्या नियम ५ च्या उपनि	ापकलम ४ आणि ऋण वन् यम २ए अन्यये समन्स.	नुली न्यायाधीकरण (प्रोसिज	तर) नियम	
	भारतीय स्टेट बँक	Exh. No.:	11672	
	विरुद्ध सागर अभय पाठव	1	-	
प्रति, (१) सागर अभय पाठक, डी	/डब्ल्य्/एस/ओ- अभय	।, राहणार– साद बंगला, f	वेजयनगर,	Kirloska
सांगली–मिरज रोड, जिल्हाधिक	ारी कार्यालयासमोर, ता. वि			A Kirloskar Registered
ज्याअर्थी ओए/३२७/२०२२	समन्स हा मा. पीठासीन अ	धिकारी/निबंधक यांचेसमो	र दिनांक	Kothrud, Pu
0७/0७/२०२५ रोजी सुनावर्ण ज्याअर्थी मा. न्यायाधीकरण यां	ोसाठी सुचीबध्द करण्यात	आला होता.		CIN : L2710
रकमेच्या वसुलीसाठी (दस्तावे	जि इ. च्या प्रती जोडले	ल्यासह) दाखल करण्यात		N
अर्जानुसार मा. पीठासीन अधिक (i) सदर समन्स मिळाल्यापासू	न तीस दिवसांचे आत सद		आदेश का	
जारी करु नये याची कारणे (ii) अर्जदाराने मूळ अर्जात अनु	j. क्र. ३ए येथे नमूद केलेट	या मिळकली व्यतिरिक्त अन्य	। मिळकती	Pursuant to issued by t
असल्यास त्याचा तपशील • (iii) आपणास सदर अन्य मिळ	सदर करावा. कली आणि अर्जदाराच्या	मूळ अर्जात कलम क्र. ३ए	मध्ये नमूद	informed th till 6 Janua
केलेली तारण मिळकतीब करण्यात येत आहे.	ाबत विक्री अथवा अन्य म	गिनि काही व्यवहार करण्याव	ार प्रतिबंध	to the dead
(iv) मूळ अर्जात अनु. ३ ए मधे न		गाहीर केलेल्या मालमरा ज्या 11 मिळकतीबाबत आपण विर्द्र		documents re-lodged f
	कराराने किंवा अन्य मार्गान), केवळ सर्वसाधारण व्यवस		such transf Eligible shi
			आपण ज्या	MUFG Intin
सोडून, कोजत्याही प्रकारे व (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस	याचा भाग म्हणून झालेल सदर तारण क्रियकलीज	ग विक्रीतून आलेली रक्तम : हितसंबंध निर्माण नगवा ~	तहे लेशीज	
सोडून, कोजल्याही प्रकार व (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंवा वित्तसंस्थेचा खात्यावर जमा करजे आपण्	सदर तारण मिळकतीवर गवर बंधनकारक आहे.	हितसंबंध निर्माण झाला अ	गहे तेथील	MUFG Intin
सोडून, कोजव्याही प्रकारे व (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंवा वित्तसंस्थेचा खात्यावर जमा करणे आपण आपणास आणखी निर्देश देज्यात आणि त्याची प्रत अर्जदारास प	सदर तारण मिळकतीवर 11वर बंधनकारक आहे. 1 येत आहे की आपण आ 11ठवाबी आणि दिनांक (हितसंबंध निर्माण झाला अ ला लेखी जबाब/ उत्तर दार ९.९०.२०२५ रोजी सकाव	ाहे तेथील इल करावा जी १०.३०	MUFG Intin Address : A Pune 41100
सोडून, कोजल्याही प्रकारे द र्याच्या सर्वसामान्य व्यवस वैकेचा किंवा क्तिसंस्थेचा आपनास आगखी निर्देश देण्यात आणि त्याची प्रत अर्जवारास प बाजला न्यायाधीकरणा सभेग गैरहजेरीत केली जाईल आणि त्य	सदर तारण मिळकतीवर गावर बंधनकारक आहे. 1 येता आहे की आपण आग गाठवाबी आणि दिनांक C हजर रहावे. असे न केल गावर निर्णयही घेतला जाईल	हितसंबंध निर्माण झाला अ ला लेखी जबाब/ उत्तर दाख ९.90.२0२५ रोजी सकाव यास सदर अर्जाची सुनावर्ण 1.	ाहे तेथील इल करावा त्रे १०.३० ो आपल्या	MUFG Intin Address : A Pune 41100
सोहून, कोणल्याही प्रकारे (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंता वित्तसंस्थेचा खारायार रूपा करणे आप आपी त्याची प्रत अर्जवरास प्रवाजी त्याची प्रत अर्जवरास बाजता न्यायाधीकरणा समेर पेंट्रकेरीत ठेली जाईल आणि व्याया माइया सद्दीनिशी आणि न्याया	सदर तारण मिळकतीवर ॥वर बंधनकारक आहे. ॥ येता आहे की आपण आग गठवाबी आणि दिनांक C हजर रहावे. असे न केल ॥वर निर्णयही घेतला जाईत शिकरणाच्या शिक्यासह दि	हितसंबंध निर्माण झाला अ स्ता लेखी जबाब/ उत्तर दाख ९.१०.२०२५ रोजी सकाव वास सदर अर्जाची सुनावर्ण ।. नांक १०.०७.२०२५ रोजी :	ाहे तेथील इल करावा जी १०.३० ो आपल्या अदा केले	MUFG Intin Address : A Pune 41100
सोहून, कोणल्याही प्रकारे (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंता वित्तसंस्थेचा खारायार रूपा करणे आप आपी त्याची प्रत अर्जवरास प्रवाजी त्याची प्रत अर्जवरास बाजता न्यायाधीकरणा समेर पेंट्रकेरीत ठेली जाईल आणि व्याया माइया सद्दीनिशी आणि न्याया	सदर तारण मिळकतीवर । येत आहे की आपण आग । येता आहे की आपण आग गाठवाबी आणि दिनांक C हजर रहावे. असे न केल वाद निर्णयदी येतवा जाईव वीकरणाच्या शिक्यासह दि जरण्याचा अधिकार असण निबंध	हितसंबंध निर्माण झाला अ ला लेखी जबाब/ उत्तर दाख ९.१०.२०२५ रोजी सकाव वास सदर अर्जाची सुनावर्ण I. नाक १०.०७.२०२५ रोजी : नाऱ्या अधिकृत अधिकाऱ्यार्थ क	ाहे तेथील इल करावा जी १०.३० ो आपल्या अदा केले	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : <u>pune</u> Place : Pun
सोडून, कोणरयाही प्रकारे व (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंवा किंता वित्तसंस्थेचा खारायावर प्रमा करणे आपण आपगास आणखी निर्देश देण्यात आणि त्याची प्रत अर्जवारात्त प बाजता न्यायाधीकरणा समोर गैरहजेरीत केली जाईल आणि व्यवा माइया सद्वीनिश्री आणि न्यायाया समन्स जारी व	सदर तारण मिळकतीवर गावर बंधनकारक आहे. 1 येत आहे की आफण आग गाठवाबी आणि दिनांक C हजर रहावे. असे न केल तावर निर्णयही घेतला जाईल गिकरणाच्या शिक्यासह दि जरण्याचा अधिकार असण	हितसंबंध निर्माण झाला अ ला लेखी जबाब/ उत्तर दाख ९.१०.२०२५ रोजी सकाव वास सदर अर्जाची सुनावर्ण I. नाक १०.०७.२०२५ रोजी : नाऱ्या अधिकृत अधिकाऱ्यार्थ क	ाहे तेथील इल करावा जी १०.३० ो आपल्या अदा केले	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : <u>pune</u> Place : Pun
सोडून, कोणरयाही प्रकारे व (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंवा किंता वित्तसंस्थेचा खारायावर प्रमा करणे आपण आपगास आणखी निर्देश देण्यात आणि त्याची प्रत अर्जवारात्त प बाजता न्यायाधीकरणा समोर गैरहजेरीत केली जाईल आणि व्यवा माइया सद्वीनिश्री आणि न्यायाया समन्स जारी व	सदर तारण मिळकतीवर गावर बंधनकारक आहे. उदे आहे की आफ आ राठवाबी आफि दिनांक C हरुपर खुावे, असे न केठ हरुपर यहावे, असे न विरुपाम्या शिक्यासह टि जरण्याचा अपिकार असण निबंध ऋण बसुली न्यार	हितसंबंध निर्माण झाला उ ला लेखी जबाब/ जर दास ९.१०.२०२५ रोजी सकाब यास सद्द अर्जाधी सुनावर्ण I. नावा कारिकृत अधिकान्यार्थ क का गयिकरण, पुणे	ाहे तथील इल करावा गि १०.३० ो आपल्या अदा केले गे स्वाक्षरी	stipulated p MUFG Intin Address: A Pune 41100 Email : <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 c
सोहुन, कोजरवादी सकरे 9 () जायंवा सर्वसानाम्य व्यवसा खारावार ज्या करने आप आपनास आपकी निर्देस देश्या: आपि त्याची प्रत करने आप खाला ग्यायां विप्त करेती जाद बाला ग्यायां विप्त अवित्या बाला ग्यायां विप्त आपि राह्या सहीनिशी आणि ग्याया किला	सदर तारण मिळकतीवर ॥ावर बंधनकारक आहे. येत आहे की आफ आ ॥ाठवाबी आणि दिगांक C हरूपर खुावे, असे न के हरूपर खाद शिवरा कार्ड किरण्याच्या अधिकार असण निबंद ऋण बसुली न्याय केप्रीय कार्यातवर्ष . A मस्तानी कि	हितसंबंध निर्माण झाला उ स्ता लेखी जबाब/ उत्तर दास ९.१0.2024 रोजी खकाब ॥ सरदर अर्जांची सुनावर्ण ॥ नांच १०८७.२024 रोजी र नांच अपिकुल अपिकान्यार्थ क प्राधीकरण, पुणे पुणे ॥ : स. नं. ४३६, ३ समिस हब , नार्हेल फाल्काव	ाहे तथील इल कराया ते 90.30 ो आपल्या अदा केले ते स्वाक्षरी रा मजला, दल्क	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
सोडून, कोणरयाही प्रकारे व (v) त्यांच्या सर्वसामान्य व्यवस बैंकेचा किंवा किंता वित्तसंस्थेचा खारायावर प्रमा करणे आपण आपगास आणखी निर्देश देण्यात आणि त्याची प्रत अर्जवारात्त प बाजता न्यायाधीकरणा समोर गैरहजेरीत केली जाईल आणि व्यवा माइया सद्वीनिश्री आणि न्यायाया समन्स जारी व	सदय तारण मिळकतीवन हात वेधन्वमाफ आहे. 1 येत आई की आफ आ प्राज्यवी आणि विगांक C हातर एमांय औरि विगांक C हातर एमांय क्रिया क्रिया वसुली न्यार क्षेत्रीय कार्यालय स्ट्रो स्ट्रेक स्ट्रो युवानी यि मुद्दो स्ट्रेक मुद्दो स्ट्रेक मंद्रो : १९	हिससंधंध निर्मात झाला उ (ला लेखे) जवाब/ जार दास (ाहे तथील इल कराया ते 90.30 ो आपल्या अदा केले ते स्वाक्षरी रा मजला, दल्क	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
संसुत, अमेलसाई सलर ' (भ) त्यांचा संसंसालना व्यस्त उद्यायास्त्र ज्या लग्धे आता आताल आपी निदेश देश्या आति त्यांची प्रान अंतराला निदेश देश्या आति त्यांची प्रान अंतराला साहसा स्वृतिस्ती आणि न्याया (क्रा) सारसा स्वृतिस्ती आणि न्याया क्रा)	सदय तारण मिळकतिय प्राद बंधन्वभाष्य आणि त्रिमांक C प्राद बंधन्वभाष्य आणि त्रिमांक C प्राद वीप्र कार्य हमें न प्राद निर्णयही घेतला आईट किरणाच्या प्रारिकार असथ निवंद क्रिण बसुली न्याय सेन्नीय कार्यालय सेन्नीय कार्यालय सेन्नीय कार्यालय मेंद्रो रदेश शाखा – दौंड (:	हितसंधेध निर्मात झाला उ लाल लेखी करबा/ उत्तर दुश १, २०,२०२५ रोजी साका ॥ तांक १०.०७,२०२५ रोजी ान्वा असिकृत अधिकाऱ्यार्थ क प्राप्तिकरण, पुणे पुणे II : स. नं. ४३६, ३ प्रलासराडी, पुणे–४१० २३०६ राअ६, १९२३९८.८ ५५९२)	ाहे तथील इल कराया ते 90.30 ो आपल्या अदा केले ते स्वाक्षरी रा मजला, दल्क	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
सोहन, अपेलवाड़ी प्रवर्ण २) (जांवा सर्वसामान्य व्यस्त बेरेका किंता नित्तसंच्या आपतात उपाली नेदिते देखा आपतात उपाली नेदिते देखा त्यावा प्रवास व्यस्तित आणि वादा प्राधानिक्या स्वार्थ किंका प्रविद्ध के प्रवेश के प्रवास किंका प्रविद्ध के प्रविद्ध के प्रविद्ध किंका प्रवास व्यस्तित के प्रवास के प्रवास किंका प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास किंका प्रवास के प्रवस के प्रवास के प्रवस के प्रवास के प्रवास के प्रवस के प्रवास के प्रवास के प्रवस के प्	सदर तारण मिळकतिय हात्र संपन्तवारक जाहे. 1 देत आई की जाफक जा ताठवाबी आणि दिनांकर इतर रखांवे, क्यों न केंक हारर खांव, क्यों न केंक हरप्र खान किंक क्रण बतुर्तनी न्या स्ट्रे स्ट्रेम स्ट्रे स्ट्रेम मंचा.: १९ शाखा - वॉंक (: माराणी स्ट्रूप्र	हितसंबंध निर्मात झाला उ स्वल लेखी जल्मा/ उपार दाउ साल लेखी जलमा/ उपार दाउ साल लेखर अर्जनी युनावर्थ मावा अरिकृत अधिका-यार्थ क प्रिकेस पुणे पुणे II : स. नं. ४३६, ३ पुने II : स. नं. ४३६, २ पुने II : स. नं. ४३६, २ पुने प्रा : स. नं. ४३६, २ पुने : स. नं. ४३६, २ पुने : स. नं. ४३६, २ स. नं. ४४६, २ स. नं. ४३६, २ स. नं. ४३६, २ स. नं. ४४६, ४४६, २ स. नं.	ग्रहे तेथील इत कराया ते 90.३0 । आपल्या अदा केले ते स्वाक्षरी रा मजला, रदक, २६	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
संसुत, अफंकलां प्रिम्बर 7 () आंधा संसंसातना व्यवस बेरेका किंता नित्तसंच्या आपतास उपाय करने आग आपतास उपायनी निर्दे ने प्राण्या केंग्रा सार्थ कोंग यांगी प्रा उन्हेतरात स बाउता न्यायाधीव्या सार्थ क्रिस्ट्रनेव केली प्रार्थ आगि व क्रिस्ट्रनेव केली प्रार्थ आगि क्रिस्ट्रनेव केली ने Canara Baa [विध्वया इन्हार्य केंग्रा केंग्रा केंग्रा केंग्रा केंग्रा सिंस्युर्प्टरायहोत्तन उपाँक की आंग लियपूर्पटी व्येक	सदर तारण मिळकतिय तारव रेग-वगारफ जारे. येता आहं की जामफ जा तारवाधी आणि दिशांक C हत्वर सुधो, असे न के जिस्ताच्या विश्वाय प्रदिश्च रुप्रयापा अधिकार अस्ता जिसं ज्रेष्ठण बसुझी न्याय सुधे, स्टेफ सुद्धा व्यक्त मंद्री स्टेफ सुद्धा व्यक्त मंद्री स्टेफ साउपारी स्ट्राया स्ट्राया न दींह (साउपारी स्ट्राया न दींह (साउपारी स्ट्राया न दींह (हितसंबंध निर्मात झाला उ स्वल लेखी जल्मा/ उपार दाउ साल लेखी जलमा/ उपार दाउ साल लेखर अर्जनी युनावर्थ मावा अरिकृत अधिका-यार्थ क प्रिकेस पुणे पुणे II : स. नं. ४३६, ३ पुने II : स. नं. ४३६, २ पुने II : स. नं. ४३६, २ पुने प्रा : स. नं. ४३६, २ पुने : स. नं. ४३६, २ पुने : स. नं. ४३६, २ स. नं. ४४६, २ स. नं. ४३६, २ स. नं. ४३६, २ स. नं. ४४६, ४४६, २ स. नं.	ग्रहे तेथील इत कराया ते 90.३0 । आपल्या अदा केले ते स्वाक्षरी रा मजला, रदक, २६	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
संसुर, अलेखायी प्रवर्ण २ () () जांधा संसंसामय व्यस्त बेंग्या किंता निमारंख्या आरामार उपास करें आप आरामार अप्राची निर्हेत ने प्राची वार्याता प्राधायीक्ता सारंग बारसा पाहीनिरी आणि न्याया ()))))))))))))))))))	सदर तारा मिळकतीवर तार वेधनवारफ आहे. 1 तेरा आहं की अपल जा ताठवनी आणि दिसांक C हलर रहाते. अते न के सरपाया अधिकार असय अप्रयापा अधिकार असय स्वयापा कि सार्यात्वय अर्ह्य वहाती ति स्वरापा के स्वयापा स्वरापा न दौंड (राह्यापा दौंड (राह्यापा दौंड कि किता स्वर्ज्य वादी कि किता स्वर्ज्य व्यापा की किता स्व अणि पत्ता	दिससंध निर्माज बाला 3 लाला लेखी जलब(जास रख 9,00,2024 संजी बाला रुदर अर्जांची तुमावर्ण () नांक 9,000,2024 संजेन () नांक 9,000,2024 संजेन () नांक 9,000,2024 संजेन का प्रीक्रमज, अप्रि का प्रीक्रिय, प्रे प्रे प्री II : स. नं. ४३२, 3 प्रत्ने II : स. नं. ४३२, 3 प्रत्ने II : स. नं. ४३२, 3 प्रत्ने प्रा प्रत्ने प्रा प्रत्ने प्रा प्रत्ने प्रा प्रा प्रा प्रत्ने प्रा प्रा ना : (2) अनुसार नोर्ट पंत्रक्र कार्ज	गहे तेथील इल करत्या ही १०३० आपल्पा आपल्पा आपल्पा आपल्पा श्रद् ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
संसुत, अफंकलां प्रिम्बर 7 () आंधा संसंसातना व्यवस बेरेका किंता नित्तसंच्या आपतास उपाय करने आग आपतास उपायनी निर्दे ने प्राण्या केंग्रा सार्थ कोंग यांगी प्रा उन्हेतरात स बाउता न्यायाधीव्या सार्थ क्रिस्ट्रनेव केली प्रार्थ आगि व क्रिस्ट्रनेव केली प्रार्थ आगि क्रिस्ट्रनेव केली ने Canara Baa [विध्वया इन्हार्य केंग्रा केंग्रा केंग्रा केंग्रा केंग्रा सिंस्युर्प्टरायहोत्तन उपाँक की आंग लियपूर्पटी व्येक	सदर तारण निकल्कीतने प्रत संपन्नपाल जारे. 1 देत आई की अराष्ट्र जा ताउननी आणि दिसांक C हत्यर दृश्वे. अने न के तिर्प्रत्याचा अधिकार असर निष्यं क्रिया बसुदेनी नावा क्रण बसुदीनी नावा स्ट्राय प्रति क्रम्प्र सहाय न दीके C साराध्या इंट्रिय स्ट्राय कि प्रता स्ट्राया नावा मा संयम्पान, स्व सावा पाता मा स्ट्रम्पान, स्व	दिससंध निर्माज बाला २ सिंहसंध निर्माज बाला २ २०,०२०२२ सेजी सकाछ यात सदर अर्जांचे तुमावर्ण , जांक १०,००,२०२२ सेजे जांक २००,२०२२ सेजे जांक २००,२०२२ सेजे जांक २००,३०२ सेजे प्रणे III : स. नं. ४३२, ३ प्रणे प्रणे	गरे तेथील इल कराया ते 90.30) आपल्या प्रा मजला, ता मजला, तरा मजला, दर्द द्द द्द द्द रद्द रद्द रद्द रद्द र	MUFG Intin Address : A Pune 41100 Email : pune Place : Pun Date : 16 J
संसुर, अलेखाडी प्रवर्ण २ (ज्योजादी प्रवर्ण २) (जांवा संसंसाजान व्यवस खेरवा किंता निपालं-का क्रांत केंद्र आपता र जावा के आपता केंद्र आपता र जावा के क्रांत केंद्र स्वरता न्यायोग्धला सांस क्रांत नियायोग्धला सांस क्रिंक Canara Bas (विष्क्राइ क्रांत केंद्र केंद्र केंद्र आपता नियायों के क्रांत केंद्र केंद्र का कार्यवार के क्रांत केंद्र केंद्र केंद्र कार्य केंद्र हास के कार्य हास के, सु-पोल्ट देवाळे, सातुक स	सदर तारत शिरुवजीती पार राजरा शिरुवजी अपने को रोज आई मिर्वा पार्थमात्र का रोज के स्वी के प्राप्त जा जाता आजि स्वी स्वार हि कि स्वार क्या कि स्वार कि स्वार क्या कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि सा	दिससंध निर्माज झाला २ स्वत्र जेस्व यह अप्रति स्वत्र जाता नेवा २,0,0,0,24 सेवी सकास सार सर २,0,0,24 सेवी स्वत्र सार स्वर, अर्जनी युनावर्ध, नार्वाक 40,00×,0,24 सेवी नार्वाक 40,00×,0,24 सेवी सार्वाक 40,00×,0,24 सेवी स्वर्ध्य सार्वाक जादवाय , जासारप्राय, प्रेरे,3,3 सेवी स्वर, प्रेरे,3,2,5 सेवी स्वर, प्रेरे,3,2,5 सेवी स्वर, प्रेरे,3,0,0,0, सेवी स्वर, प्रेरे,3,0,0,0, रोजी	गहे सेथील इस कराया हे १०३० अपरस्या प्रदा फेले तो स्वाक्षरी ति स्वाक्षरी स स स्वल स स स्वल स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	MUFG Intin Address: A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 v "Mark H
संसुर, अलेखाडी प्रवर्ण २ () (जांचा संसंसाज व्यवस बेंक्सा किंता निप्तसंच्या आरामार अप्राय करने आप जांचा का जांचा देखा के का जांचा का जांचा देखा के का बादवा सदीवियी आणि न्याया क्रिस्ट्रादियाहील आप दिस्ट्रादियाहील आप विश्वपुरिटायहील जांचा किंस्ट्रादियहोल का का वित्तपुरिटायहोल जांचा किंस्ट्रादियहोल का का वित्तपुरिटायहोल जांचा कर्जदाराय के . कुंदार में मा आणि	सदर तारत शिवकावीत तार राजार शिवकावीत मेरा आई से आपका आपका आपका मेरा आई से आपका आपका मिर्का क्यूसी नाया किंग्स्स के स्थान के से क्यान के स्थान के स्थान के से क्यान के स्थान के स्थान के से क्यान के स्थान के से क्यान के स्थान के से क्यान के स्थान के से क्यान के स्थान के साम का के साम का के साम के सा	हिससंध निर्माज झाला २ हिससंध निर्माज झाला २ स्व.0.2024 चीनी सकास मार सदर अलंगी दुनावर्थ 	गहे तेथील तन करवात हे जापल्या ने आपल्या ने आपल्या ने जापल्या ने क्यांस्ट्री ते स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्रि स्ट्र संट्र स्ट स्ट्र स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट स्ट	MUFG Intin Address: A Pune 41100 Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 v "Mark t "Mark t
संसुर, अलेकाली प्रवर्ण २ () जांचा संसंसाज व्यवस बेंक्स किंता निप्तसंच्या आपसार ज्यार जा कर आप जांचा का जांचा के जांचा का जांचा का जांची निर्वे आप बिस्ट्रेसेते केले बार्ट कर्सनार क सारवा स्वीनिश्च आपि प्रवर्ण विक्र Canara Baa बिस्ट्रुटिटायहोरन जेंदर, ते जांक सिंव्युरिटियहोरन कर जांक सिंव्युरिटी इंटरे कर्जवार में ना आपि स्वित्युरिटायहोरन जेंदर, ते जांक सिंव्युरिटी इंटरे कर्जवार में ना आपि स्वित्युरिटायहोरन जेंदर, ते जांक सिंव्युरिटी इंटरे कर्जवार में ना आपि स्वित्युरिटायहोरन जेंदर, ते जांक सिंव्युरिटी इंटरे	सदर तारत शिवकावीत ता रा रा रा राजा का स्वा रा राजा का सिवस का	हिससंध निर्मात झाला उ हाला लेखी जवा/ जार दाव 3, 40, 2024 'वीनी सकास मार सदर अलंगी दुनावर्थ नावंक 1000-2024 'वीनी' नावंक अधिकाल अखिता मार का गाविकरण, चुने चुने 11 : स. नं. ४३. २ में स. इ. नावंक जावचा मार्गा सार प्रदेश प्रदेश के सार स. नावंक जावचा के सार स. नावंक जावचा के सार स. नावंक जावचा मार्गा सार प्रदेश प्रदेश के सार स. नावंक जावचा मार्गा सार प्रदेश के सार नावं सार स. नावंक माल	गहे तेथील तन करवात हे जायल्या जायल्या जायल्या जायल्या जायल्या हे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे	MUFG Intin Address: A Pune 4100 Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 - "Mark t "Mark t
संसुर, अलेक्साडी प्रवर्ण २ , (जांवा संसंसाज व्यवस बेरेका किंता निप्तसंच्या आरामार अपन करों आप बारामार अपनी देखें रेच्या बारामार आपनी देखें रेच्या बिस्ट्रारी देखें की आपि व्यवस बिस्ट्रारी दिवसे केंद्री से की प्रतास किंस्ट्रारी दिवस केंद्रिय केंद्रि सिंपा स्वेत हम्प्रत केंद्रि सींपा स्वेत हम्प्रत क्रिस्ट्रारी स्वार्ड स्वार्ड केंद्रिया स्वी जांता केंद्रिया स्वी जांता केंद्रिया स्वी जांता केंद्रिया स्वी जांता केंद्रिया स्वी जांता केंद्रिया स्वी जांता केंद्रिया स्वी जांता	सत ताल मिश्वनीसे सर गांव मिश्वनीसे सार जाडरी के प्रयान जा जाता जानी हमें सिंह के प्रयान के प्रयान के प्रयान कि प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान सार प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्र	हिससंध निर्मात डाला २ हिससंध निर्मात डाला २ २,00,204 फी सहक मार सर, अलंगी नुमार्थ मा जा आदिक अलंगी नुमार्थ मा जा आदिक अलंगा ने क मा जा आदिक जादवा क गा किरल, जुमे चुमे डा. स. मं. ४३,२,३ में स. इ. महिल जादवा , जासारप्रात्र, कुमे २४१०, ३३०६ मध्य, १९,३२४८७ में स. इ. महिल जादवा , जासारप्रात्र, कुमे २४१०, ३३०६ मध्य, १९,३२४८७ में स. इ. मुके जाद के नि उक्की, इ. ३२४,०७७, से जात के सिटस् ऑवड प्ल से जात के सिटस् ऑवड प्ल में प्रतार के स्वार्थ के स्वार्थ में प्रतार के स्वार्थ के स्वार्थ से प्रतार के स्वार्थ के स्वार्थ	ाहे तेथील ाल करवाता ते 90,300 1 आपल्या आपल्या आपल्या आपल्या तबळ, १,40 कोर्ससेंट स्व प्रस्तर्भ के मत्ता असे माशिअल माशिअल माशि जारी	MUFG Intrin Address: A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 - "Mark t "Mark t
संसुर, अलेकलां प्रे प्रवर्भ () जांचा सर्वसानाम् व्यवस बेंग्सा किंता नित्तरंख्या आरासार उपास कर आप वारा प्राय प्राय कर आप वारा प्राय प्राय कर आप बार प्राय प्रवर्धने करने वार्ड जांकि क प्राय स्वर प्राय प्रविभी आपि प्राय क्रिस्पूरिट प्राय्त का प्राय विष्कृति प्रयास कर केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र विष्ठ्र विष्ठ केंक्र विष्ठु विष्ठ केंक्र विष्ठु विष्ठ केंक्र विष्ठ्र केंक्र विष्ठ विष्ठ केंक्र विष्ठ्र केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र केंक्र विष्ठ वा वारी केंक्र	सत ताल मिरकामीत सर गाल मिरकामीत में राज अही के राज्य जा काली आर्मि सिंहाम काला आर्मि स्वार्थ का में काला काला का काला का में काला काला का काला का काला काला का काला का काला काला का काला का काला काला का काला का काला काला का काला का काला का का काला का का काला का का काला का का काला का का काला का का का का का का का का का का	शितसंध निर्मात बाला क लात लेखी जला/ जार दाव , 40,0.2024 चौनी सकास म , 40,0.2024 चौनी , नांक 90,000,2024 चौनी , नांक 90,000,2024 चौनी , नांक 90,000,2024 चौनी , नांक 90,000,2024 चौनी , जांक 90,000,2024 मा भा भा भा भा भा भा भा ने का क्या मा भा भा भा भा ने का का मा भा भा भा भा भा ने का का मा भा भा भा भा भा भा ने का का मा भा भा भा भा भा भा भा ने का का मा भा भा भा भा भा भा भा भा ने का का मा भा भा भा भा भा भा भा भा ने का मा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा भ	गहे तेथील ता नगरावा ही न0.30 1 आपल्या अद्या केले ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगराव ता ता नगरावा ता नगराव ता नगरा ता नगराव ता नगरात नगराव त	MUFG Intrin Address : A Pune 4110C Email : <u>pune</u> Place : Pune Date : 16 s "Mark t "Mark t store of device and the "Mark t
संसुर, अलेकलां प्रे प्रवर्भ () जांचा सर्वसानाम् व्यवस बेंग्सा किंता नित्तरंख्या आरासार उपास कर आप वारा प्राय प्राय कर आप वारा प्राय प्राय कर आप बार प्राय प्रवर्धने करने वार्ड जांकि क प्राय स्वर प्राय प्रविभी आपि प्राय क्रिस्पूरिट प्राय्त का प्राय विष्कृति प्रयास कर केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र केंक्र विष्कृति प्राय केंक्र विष्ठ्र विष्ठ केंक्र विष्ठु विष्ठ केंक्र विष्ठु विष्ठ केंक्र विष्ठ्र केंक्र विष्ठ विष्ठ केंक्र विष्ठ्र केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र विष्ठ केंक्र केंक्र विष्ठ वा वारी केंक्र	सतर ताल मिश्वकांगैता सर राजा मिश्वकांगैता सर आजसे की अपक जा जाता आज हिस्तां के अपक जा मिश्वकी के प्राथम जा किस्ता मिश्वम हि काम समुद्री के प्रायम किस्ता काम सुद्री के प्रायम किस्ता काम सुद्री के प्रायम के सेनीय कार्यातय के सेनीय कार्यातय सार्या मिश्वम क्या कि काम सुद्री के प्राय मिश्वम के प्रायम के सेनीय कार्यातय सार्या मा द्रिप्त के प्रायम सार्या मा द्रिप्त के प्रायम कार्या मा प्रयम्प का ता क्या कि प्रायम कार्या मा प्रयम्प कर जाते. तारे वाने/हिने/त्याया तारे वाने/हिने/त्याया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारे वाने/हिने/ताया तारायम प्रयम्प का सारायम स्वार्य का स्वार्य का ताने के किंग्रेया माहीतक के जोते.	शितसंध निर्मात डाला २ सिंहससंध निर्मात डाला २ स. २२.२२२ मंग असिकृत अल्प्री युनावर्थ	गहे तेथील ता नगरावा ही न0.30 1 आपल्या अद्या केले ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगराव ता ता नगरावा ता नगराव ता नगरा ता नगराव ता नगरात नगराव त	MUFG Intin Address: A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 - "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t
संसुर, अलेखाडी प्रमार ? () जांचा संसंसाना व्यवस बेरुवा विश्व निर्मातमा व्यवस बेरुवा विश्व निर्मातमा व्यवस बेरुवा देवा निर्मात के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र वारास संसार संसित्त के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र क्यांत्र सिंधा के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र के क्यांत्र कि Canara Baa विश्व दिव्याक्षेत्र के क्यांत क्यांत के क्यांत क्यांत के क्यांत क्यांत क्यांत के क्यांत के क्यांत	सत ताल सिक्समीत सर गांव सिक्समीत सर गांव सिक्सम की अपने जा सार गांव सिंह के सिक्सम की सिंह के सिक्सम की सिंह के सिंह के सिक्सम की सिंह के सिंह के सिक्सम की से सिंह के सिंह के सिंह के सिंह से सिंह के सिंह के सिंह से सिंह के सिंह के सिंह से सिंह के सिंह से सिंह के सिंह से सिंह के सिंह के सिंह के सिंह से सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह से सिंह के सिंह से सिंह के सिंह क	हिससंध निर्मात बाला क लाता लेखी जवा/ जार राव 	गहे तेथील ता नगरावा ही न0.30 1 आपल्या अद्या केले ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगरावा ता नगराव ता नगरात ता नगरात ता नगरात त नगरात ता नगराव ता नगराव त	MUFG Intin Address: A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 - "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t
संसुर, अलेखाडी प्रकर्ण () जांचा संसंसात्माच्य व्यस्त खेला किंता निपालंच्या खारासार ज्या करने आग जारासा आगती देखें जांचा किंता निपालंचा खारासा राष्ट्रीनि आजि व्याया क्रिस्त किंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र जांगत निपालं केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र जांगत निपालंचे केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र जांगत निपालंचे केंद्र कें	सतर ताल मिश्वकांगैता सर ताल मिश्वकांगैता सर आजसे की अपक जा जाता जाजी होनी के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के से के स्वार्थ के स्वार्थ का सहस्वार जीवार जावा के से के स्वार्थ के से के स्वार्थ का सहस्वार जीवार जावा के से के साम्प्रता के स्वार्थ का सहस्वार जीवार जावा स्वार्थ के से के साम्प्रत स्वार्थ के से के साम्प्रत स्वार्थ के से के साम्प्रत स्वार्थ के से के साम्प्रत का साम्प्रया के साम्प्रत के से के साम्प्रत के से के साम्प्रत के साम्प्रत के साम्प्रत के साम्प्रत	दिससंध निर्माज झाला अ हाल लेखी जला/ जार दाव , 00.2024 जेनी सहाज , 00.2024 जेनी सहाज , 00.2024 जेनी , जांक 9.002.2024 जेनी , जांक 9.002.2024 जेनी , जांक 9.002.2024 जेनी , जांक 9.002.2024 को मारे का किल् , जांक 9.002 को मारे का किल को को को को को को को को किल को किल को को को को किल को किल को किल को किल को को को किल को को की	ाहे श्वेगेल तल कप्ता आजपल्ना आजपल्ना ता भजला, ता भजला, ता भजला, ता भजला, ता भजला, ता भजला, ता अजनाना ता अजनाना ता अजनाना ता अजनाना	MUFG Intin Address: A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 - "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t
सोहा, अलेकाली प्रवर्ण २ () जांचा संसंधानाय व्यस्त बेंग्सा किंता नित्तारंख्या व्यायार प्रया कर आण वारायार प्रया कर आण वारायार प्रायाधी स्थान वाराया प्रायाधी स्थान वाराया सहीनिनी आणि न्याया क्रिस्तुरिटायसेक्त आंव स्थान विकलूटि विठ Canara Bat विकलूटि विठ Canara Bat विकलूटि विठ Canara Bat विकलूटि विठ Canara Bat विकल्प्र विठ Canara Bat विकल्प्य वार्या कर कर्प स्थान स्थान कर्म्या कर कर्प वाराया स्थान कर्प्या स्थान कर विद्या नि अपितर (कर्फ्य कर्प्या कर्या कर क्यां कर वाराया कर कर के विद्या कर कर्प्या कर का कर वाराया कर कर के वाराया कर कर के वाराया कर कर के वाराया वित्य कर	सत ताल शिककांगीत सर ताल शिककांगीत सर गांव गांव के आपक से गांव के सिंह के आपक सिंह के साम के सिंह के साम के सिंह के साम के सिंह के साम के सिंह कि साम की सिंह साम के साम क	शितसंध निर्मात डाला उ शितसंध निर्मात डाला उ स्व , 2,00,2024 योजी सकास , 2,00,2024 योजी , नांक 9,000,2024 योजी , नांक 9,000,2024 योजी , नांक 9,000,2024 योजी , नांक 9,000, पुणे II : स. नं. ४३६, ३ पुणे प्रान्त प्रान्त प्रान्त , जावाय्याती, यानुपार कार्जा , यानुपार आत परता आति, यानुपार कार्जा , यानुपार कार्जा , यानुपार जाय के म्वाज्य प्रात्त आत. के म्वाज्य प्रात्त आत.	ाहे संगेल तन करना में 9.2,0 आजप्स्ना ता सजला, ता सजला, ता सजला, द् द् द र स्वा संस् स्वा संस् स्वा सं स्वा सं स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्	MUFG Intin Address: A Pune 4100 Email: <u>pune</u> Place: Pune Date : 16 v "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "Interest and seven and seven device a
संसुत, अलेकलांक प्रकल 2 () जांचा संसंसात्माच्य व्यस्त बेंक्सा किंता नित्तारंक्सा बारावार उपास करने आग आपता ह आपती हैंकी किंता बारावार व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के क्याप्त के क्याप्त के बारावा वियाप्ती के बालि व्याप्त का बारावा व्याप्त का का स्त्र व्याप्त के क्याप्त के क्याप्त के बाराव वियाप्र के क्याप्त के बारावा वियाप्र के क्याप्त का कर्तवार के बारावा के बारावा वारा के क्याप्त का कर्तवार के बारावा वाराज के क्याप्त के बारावा वाराज के का बारावा वाराज के का बारावा का के क्याप्त का का बारावा का के क्याप्त का का बारावा का के क्याप्त का का बारावा का का के बारावा का के का का का का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का का का का का का बारावा का	सत ताल मिश्वजीते सर ताल मिश्वजीते सर जात कि आपके से जा अही के जातन जा कि जातन की जाति स्वार कि जातन की कि जातन की कि जातन की कि जातन की को कि जातन की कि जातन की कि जातन की को कि जातन की कि जातन की कि जातन की कि जातन की को कि जातन की कि जातन की कि जातन की कि जातन की कि जातन की का कि जातन की कि जातन की का कि जातन की की की जातन की	शितसंध निर्मात डाला के शितसंध निर्मात डाला के स्व कि कि मां कि कि मां कि कि मां कि	ाहे सेवील इन क्यावा आजारना आजारना आजारना त मजला, त्यात् त मजला, त मजल	MUFG Intin Address: A Pune 4100 Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 - "Mark It "Mark It "Mark It statement address in us address
संसुत, अलेकलांक प्रकल 2 () जांचा संसंसात्माच्य व्यस्त बेंक्सा किंता नित्तारंक्सा बारावार उपास करने आग आपता ह आपती हैंकी किंता बारावार व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के कर्तवार कर बारावा व्याप्ता के क्याप्त के क्याप्त के बारावा वियाप्ती के बालि व्याप्त का बारावा व्याप्त का का स्त्र व्याप्त के क्याप्त के क्याप्त के बाराव वियाप्र के क्याप्त के बारावा वियाप्र के क्याप्त का कर्तवार के बारावा के बारावा वारा के क्याप्त का कर्तवार के बारावा वाराज के क्याप्त के बारावा वाराज के का बारावा वाराज के का बारावा का के क्याप्त का का बारावा का के क्याप्त का का बारावा का के क्याप्त का का बारावा का का के बारावा का के का का का का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का बारावा का का का का का का का का का बारावा का	सत ताल मिश्वजीते सर गाल मिश्वजीते सर जाउसी के प्राप्त जा जा जा जा मिले सिंह मिश्वप्र के प्राप्त जा मिश्वप्र के प्राप्त जा मिश्वप्र के प्राप्त के प्राप्त जा मिश्वप्र के प्राप्त जा में कि प्राप्त जा में कि प्राप्त जा में कि प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त जा में कि प्राप्त के प्राप्त में कि प्राप्त के प्राप्त में कि प्राप्त के का मां का कि प्राप्त मां का कि प्राप्त के प्राप्त मां का कि प्राप्त के प्राप्त	शितसंध निर्मात डाला के शितसंध निर्मात डाला के स्व कि कि मां कि कि मां कि कि मां कि	ाहे सेवील इन क्यावा आजारना आजारना आजारना त मजला, त्यात् त मजला, त मजल	MUFG Intin Address: A Pune 410C Email: <u>pun</u> Place : Pun Date : 16 . "Mark I "Mark I "
संसुत, अलेकलां प्रे प्रवर्भ (२) आंधा संसंसालक व्यस्त बेंक्सा किंता नित्तरंखना खारासार ज्यान कर आग कर आग आपतार अगावी हिंदी रुखना बादसा यादामिका सांसंसा किंता बादसा यादामिका सांसंसाल बिस्ट्रेरोत स्वेती सांसंसाल बिस्ट्रेरोत स्वेती सांसंसाल बिस्ट्रेरिय स्वेती कर सांस बिस्ट्रेरिय स्वेत कर सांस बिस्ट्रेरिय स्वेत कर सांस बिस्ट्रेरिय स्वेत कर सांस बिस्ट्रेरियाय आयेली ने बिस्ट्रेरियाय आयेली ने बिस्ट्रेरियाय आयेली ने बिस्ट्रेरियाय आयेली ने स्वेती स्वेतरायार करने सांस	सत ताल सिककावेत सर ताल सिककावेत सर राज्य सिककावे से राज के कि वास्त कि स्वार के से कि स्वार कि से कि सा कि से कि से से कि से की से कि से से कि से की से कि से की से कि से कि से की से कि से की से कि से की से कि से की से कि से कि से की सी की से की से की सी की से की सी की सी की से की सी	शितसंध निर्माज झाला उ शितसंध निर्माज झाला उ स्व क्या के क्या के क्या के जाते के क्या	ाहे संग्रेशन तन करणा भे 9.2,0 आजपन्ना आजपन्ना ते पजला, ते क्वासनी ते क्वासनी त त क्वासनी ते क्वासनी ते क्वासनी त क्वासनी	MUEG Intrin Address : A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Date : 16 c "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "Intrinsic in the second address in the second ad
संसुत, अलेकलां प्रे प्रवर्भ (२) लांधा संसंसाला व्यवस खेरवा किंता निम्संस्वेच्या खारवार ज्या कर आज कर आज आजात आजाती होते केंद्र खारवार ज्याती देव खारवार ज्याती देव खारवार ज्याती केंद्र खारवार ज्याती केंद्र खारवार कर कर कर संस्था सहिस्सी आजी ज्याता किंस्युरिटायझेला आँक किंस्युरिटायझेला का आँक किंस्युरिटायझेला का आँक किंस्युरिटायझेला का आँक किंस्युरिटायझेला का आँक किंस्युरिटायझेला का आँक किंस्युरिटायझेला का किंस्य किंस्याता का किंस्य किंस्याता करने की या किंस्याता करने का मा	सत ताल सिककावेत सर ताल सिककावेत सर राज्य सिककावे से राज के कि वास्त कि स्वार के राज के कि स्वार कि स्वार के स्	शितसंध निर्माज बाला क लात लेखी जला/ जार दाव , 40,0204 'खेनी खलाब , 40,0204 'खेनी खलाब , 40,0204 'खेनी , 10,004,204 'खेनी 'खेने खर, न, 432, 3' 'खेने खर, न, 432, 3' 'खेने खर, न, न, 182 'खेने खर, न, न, 182 'खेने खर, न, न, 182 'खेने खर, न, 182 'खेने खर, 183 'खेने खर, 183	ाहे तेवील तल करणा आजपल्या आजपल्या ता स्वलाती ता ता त	MUEG Intrin Address: A Pune 4110C Email: <u>pune</u> Place : Pun Jate : 16 . "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "Mark t "State : 16 . "Mark t "Mark t "State : 16 . "Mark t state : 16 . "State : 16 .
संसुत, अलेकलां प्रे प्रवर्भ (२) आंधा संसंसाला क्या करने अंधा सार्वे प्राया करने आग आपता र अपाल के आग आपता र अपाली ने ही जाति यांची प्राय जाता हा प्राया ही स्वर्थ का करी प्राया के करेतरात । क्या सार्वे प्राया की जाता करेतरात । क्या कर्या प्राया की जाता कि जाता कि प्रयुद्धि करेता के का का कि जाता कि जाता कि प्रयुद्धि करेता के का कि जाता के का कि जाता कि प्रयुद्धि करेता के का कि जाता के का कि जाता कि प्रयुद्धि करेता के का कि जाता के का कि जाता कि जाता कि जाता कि जाता के का कि जाता के का कि जाता के का कि जाता कि जाता कि जाता के का कि जाता के का कि जाता का का कि जाता की जाता की जाता कि जाता के जाता की जाता के जाता की जाता के जाता की जाता के जाता के जाता के जाता के जाता की जाता के जाता की जाता की जाता की जाता के जाता जाता के जाता के जाता के जाता जाता जाता के जाता जाता जाता के जाता जाता के जा	सत ताल सिककावेत सर ताल सिककावेत सर राज्य सिककावे से राज के कि वास्त कि स्वार के से प्रायम कि से प्रायम के से	शितसंध निर्माज बाला व शितसंध निर्माज बाला व 	ाहे श्वेगेल इन क्यावा आजस्त्वा आजस्त्वा ता वजला, ता कलल, दे के रवा ता कलल, दे के रवा ता कलल, दे के ता कलल, दे के ता कलल, दे के के के के के के के के के के के के के	MUFC Intrin Address: A Address: A Pune 410C Email: punu Date: 16 \u03e4 "Mark I "Intersection and advantage and advantage and advantage advantage advantage advantage advantage advantage advantage advantage advantage advantage advantage advantage a
संसुत, अलेकलां प्रे प्रवर्भ (२) आंधा संसंसाला व्यवस खेरवा किंता नियासंच्या खारासर प्रवार कर आग आपता र आपती हिंदी रुखान खारसर प्रवारी से स्वर्थ खारसर प्रवारी सिंह केंद्र रहे के स्वर्थ संस्थान किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र संस्था किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र संस्था किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र संस्था किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र संस्था किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र केंद्र किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र किंस्पुरिट केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र किंस्पुरिट प्रक्रेशन केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र किंस्पुरिट केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र स्वेती केंद्र किंस केंद्र केंद	प्रसर ताला शिवकावीत ता राजारणकर करें ते के उन्हे के वारण जा जिसके के प्राप्त का के के का के का ता जिसके के जा के के के के के के के का के के के के के के के के के का सार्व के के के के के के के के के का सार्व के के के के के के के के के के के के का सार्व के के के के क	शितसंध निमांत बाला व शितसंध निमांत बाला व स्वा लेखी जवा/ जार दव स्व स्व स्व स्व स्व स्व गांत स्व स्व स्व स्व स्व गांत स्व स्व स्व स्व स्व पुणे ॥ : स. नं. ४३६, ३ गांत अधिकृत अधिका स्व पुणे ॥ : स. नं. ४३६, ३ पुणे ॥ : स. नं. ४३६, ३ राजे विद्य स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व राजे स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व राजे स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व राजे स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व राजे स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व राजे स्व	हे स्वेमेल इन करना आजस्त्रना आजस्त्रना से रक्का में रक्का त स जलत, र र से रक्का त स जलत, र र स्वा क्का त स जलत, र र र र र र र र र र र र र र र र र र र	MUFG Intin Address: A Address: A Pune 4110C Email: punu Date: 16 v. "Mark I "Mark I "Mark I "Mark I "Mark I "Interview">
सोहन, अफेलवी प्रवर्भ २ (जांवा संसंसाज व्यवस बेंक्स किंता निप्तसंच्या आपतार उपास कर आप बोंक पानी प्रव के आप बोंक पानी प्रव के आप बोंक पानी प्रव के अप बारसा सहीसी आजि प्रवास किंस्युदिटायहोला जेवल बिंक्युदिटायहोला जेवल बिंक्युदिटायहोला जेवल बिंक्युदिटायहोला जेवल बिंक्युदिटायहोला जेवल बार सिंब्युदिटायहोला जेवल बार सिंब्युदिटायहोला जेवल बार सिंब्युदिटायहोला जेवल बार सिंब्युदिटायहोला जेवल बार सिंब्युदिटायहोला जेवल बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोला बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोल बार सिंब्युदिटायहोल बार स्वार स्वार बार स्वार स्वार बार स्वार स्वार बार स्वार स्वार स्वार बार स्वार स्वार स्वार बार स्वार स्वार स्वार बार स्वार स्वार बार स्वार स्वार बार स्वार स्वार बार स्वार स्	सत ताल मिरुवामीत सार गाल मिरुवामीत में राज असे में आपका आपका में राज असे में आपका में राज आपका में स्वार सार गाल मिरुवाम का में राज में सार मार सार मार सार मार सार मार सार मार सार मार सार मार सार मार सार मार मार सार मार सार मार मार सार मार सार मार सार मार सार मार सार मार मार सार मार सार मार स	शितसंध जिला/ जार ता ज ता लेखी जला/ जार दा ज , 40,0204 'जीनी सकास प्राय लाद अलंगी दुनावर्ध. 	हे संगेल इन करना आपल्या आपल्या आपलांस म स्वतनी म स्वतनि म स्वतनी म स्वतन म स्वतनी स्वतनी म स्वतनी म स	MUEG Intrin Address : A Pune 4110C Email : <u>pune</u> Date : 16 .
सोहन, अलेगलांडी प्रवर्ण २) (जांवा संसंसातानक व्यस्त बेंक्सा किंता निर्मातंक्स खारावार उपास करने आप खारावार उपास करने आप खारावा राजा करने होता बारावा राजा करने होता बारावा राजा करने होता करने करने करने बारावा करने खारावा राजा करने करने खारावा राजा करने करने खारावा राजा करने करने बिस्तपुरिटायहोन दाया के बिस्तपुरिटायहोन के बिस्तपुरिटायहोन प्रतिस्तपा के दाय करने बाराव प्रतुप्त के दाय के बिस्तपुरिटायहोन का सार्व सेहाया के बिस्तपुरिटायहोन	सत ताल सिक्समेत सर ताल सिक्समेत सर कार सिक्समेत से का जही के प्राप्त का सिक्समेत से का जही के प्राप्त का सिक्समेत से का सिक्समेत से का सिक्समेत	शितसंध निर्मात बाला क ला लेखी जला/ जार दाव , 40,0204 'जीनी सकास प्राय लाद अलंगी दुनावर्ध.	हरे संगेल तन करना आपरन्म आपरन्म आपरने प्रस्ताके त नजता, रक्ष स्व के स्व के संक स्व के स्व के स स्व के स्व के स्व के स्व के स्व के स क् स स्व के स क् त स क्	MUEG Intrin Address : A Address : A Pune 410C Email : <u>pune</u> Date : 16 - Date : 16 - Markt : Markt : Markt : Markt : Comparison : Comparison : Markt : Comparison
सोहत, अलेकली प्रवर्भ निर्णालय व्यवस खेला किंवा निरासंच्या खारावार उपया करने आग आपता ह जापनी निर्वे ने प्रया खारावार उपया करने आग खारावा राजवी निर्वे ने प्रया खारावा राजवी ने प्रया किंप्युरिटायझे ना प्रा सिंबयुरिटायझे ना प्रा किंप्युरिटायझे ना प्रा किंप्र क्रा कर्णपता कर्युर केंनी आ कापत किंप्रा का प्रा केंप्रेस्ट अंध एप्यमेंसे नाप्या ता आग हास्प्रम काप्या ने प्रा कींप्रा केंप्र करा केंप्रा केंप्र करा केंप्रा केंप्र करा केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्रा केंप्र करा केंप्रा केंप्रा ना प्रा केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्रा केंप्रा ना प्रा केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्रा केंप्रा केंप्र केंप्रा केंप्र ना प्रा केंप्र केंप्र केंप्र ना प्रा केंप्र केंप्रा केंप्र ना करा केंप्र केंप्र ना केंप्र केंप्र केंप्र ना प्रा केंप्र केंप्र ना केंप्र केंप्र केंप्र ना ना केंप्र केंप्र केंप्र ना केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र ना केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र केंप्र	सत ताल शिक्सकोरे सर राजा शिक्सकोरे सर आज ही के याजा आगे हिंगा साम के स्वार्थ के साम का साम के साम क	शितसंध जिला/ जार ता ज ता लेखी जला/ जार दा ज , 40,0204 'जीनी सकास प्राय लाद अलंगी दुनावर्ध. 	हे श्वेशेल तन करना भी 9.00 आ आस्ता आ आस्ता आ आस्ता त मजला, त	MUFG Intin Address: A Address: A Pune 4110C Email: punu Date: 16 v. "Mark I "Mark I "Mark I "Mark I "Mark I "Interview">
संसुर, अलेकलां प्रे प्रवर्भ (२) आंधा संसंसालन व्यस्त बेंग्ला किंता नित्तरंखना आरामार उपालन के साल आरामार उपालन के साल आरामार उपालन के साल आरामार उपालन के साल बारसा यहाँ सिनी आजि व्याया किंग्लूपुर्टे टार्टन के साल किंग्लूपुर्टे टार्टन के साल किंग्लूपार के साल के साल	सत ताल सिक्वमीत सर ताल सिक्वमीत सर गजराव के सिंह से गजर ही के राज्य जा के से गजराव के सिक्वमी कि सिंह के से कि साम्राज के स	शितसंध निर्मात इताल उ शितसंध निर्मात इताल उ 	हरे संगेल तन करना आजस्वा आजस्वा आजस्वा ता स्वला ता स्व ता ता स्व ता स्व ता स्व ता स्व ता स्व ता स्व ता ता स्व ता ता ता स्व ता स्व ता स्व ता ता स्व ता त ता स्व ता ता स्व ता ता	MUEG Intrin Address : A Address : A Pune 410C Email : <u>pune</u> Date : 16 - Date : 16 - Markt : Markt : Markt : Markt : Comparison : Comparison : Markt : Comparison

	LOSS OF SHA		IFICATE		
be lost / mi certificate in office of the	eby given that the following splaced and the Company lieu thereof. Please note Company within 15 days fro II be considered for issue by	has been reque that, if no objection on the publication	sted to issue duplicat in is received at the re of this notice, duplicat	e share gistereo e share	
certificate will be considered for issue by the Company to the respective shareholder; Folio No. Name of the Share Distinctive No. of Shareholders Certificate No. Numbers Shareholders No. of					
Folio No.					
Folio No. K0002937				Shares	
	Shareholders KAIRSY P DUMASIA	Certificate No.	Numbers	Shares 1000	

	फिनिक्स एआरसी प्रायव्हेट लिमिटेड
Phoenix ABC	नोरे. डेज्यॉलस : हम कनला, नॉलेस टॉस्टर 189-140/मॉ/), रासर मेड डॉरॉस आणि सेटटर्ग एससप्रे सिलेपालें (पूर्व) मुंखई - 400 057, तुरुप्रमी : 022- 6849 2450, फॅक्स : 02- 6741 231 CIN: U67190MH2007PTC168030 मुंबेल: into@phoenixarc.co.in, रेक्साइ: waw.choenixarc
गॅग्लिअल ?सेट्स औड एनफो	ल्स, 2002 मधील नियम 8 आणि 9 च्या तल्तुवीसड वाचण्यात येणात्या सिक्युपैटायझेशन औड सिकल्टुका संमेच्द्र ऑफ सिक्युरिटी इंटरेल्ट ॲक्ट, 2002 अंतर्गत स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी ई-लि्लाव विक्री :
	१ विशेषता फर्जवर / जामीनवर / महाणवर बांना सचना देण्यत येत आहे को खाली वर्णन केलेल्या स्थावर

रोगा रूपेंग्र,) जानितार , प्रात्मपर संग मुपन निप्तार में। आरं अे साली लाग स्वज्य तिरिदेद (पूर्वी) अप्रायार ग्रेस फारावराना कारिपेशन निर्मिद्ध स्वापुन आंठवलने जाण ने फिलिस एआर्था प्रालंद निर्मोदेश संजाकरे लाल अप्रुम लादी निकी 'चन्नी आत्र के स्वारतियामा 'जानार जानी पार्रातील्या रिल्याजना संकारकों ने पुर्वेण आत्र, प्रेस >2) इस्स, 2002 मधीन नियम, डार्था 9 सह मानरेशना सर्रक्ष्य के स्वादाजा तालुईज्या निम्पा कर्षत www.holensize.com/sub-markatika/bala

I		इ-लिलावाची तार्गेग्व आणि चंळ : 11-08-2025 रोजी सकाळी 11:00 ते दुपारी 02:00 चा. (प्रत्येकी 5 मिनिटोच्या अमयोद चिस्तारोस					
	अ. क्र.	कर्जदार / जामीनदार / कर्ज खाते	मागणी सूचना तारीख आणि रक्षम	स्थावर मालमत्तेचे वर्णन	राखीव किंमत, इरठे आणि इरठे सादर करण्याची शेवटची तारीख		
		कर्ज खाते क्र. : LXCHA00815-160009055	20-12-2021 करिता रु:	फलेंट क्र 39, तिसरा मजला, श्री अलंकापुरी, सब्हें क्र.	राखीय किंमत : २. 6,32,081/- (श्यये सहा लार बत्तीस हजार एक्याऐंशी फक्त)		
		शाखाः : साकण कर्जवारः : संविध दिनकर गोरह सह-कर्जवार: अधिनी संविध गोरह	9,16,166/- (नरू लाख सोळा हजार एकरो सहासष्ट फल)	105, हिस्सा क्र. 1 / 1 / 3, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र - 412105	इस्डे : रु. 63,208/- (२पर्य प्रेसष्ट तजर दोनसे आ फल) इस्डे जमा करण्याची शोवटची तारीखः 10-08-20.		
		कर्ज खाते क्र. : LXCHA00815-160009054 शाखा : चाकण	20-12-2021 करिता रु : 9,79,508/- (नऊ लाख एकोणऐंशी इजार	फ्लंट क्र - 40, तिसन मजला, श्री अलंकापुरी, सब्हें क्र. 105, हिस्सा क्र. 1 / 1	राखीव किंमत : रु. 6,51,886/- (रुपवे सह लाख एकावत्र हजार आदसे शहापेंसी फक) इरदे : रु. 65,188/- (रुपवे पासह हजार एक) अदुवापेंसी फक)		

मि प्रक्रियेतून जाऊ सकततः आणि- संपर्क क्र १833801159, वांवेशी संपर्क साथु शकता शकतातः + 9183709 69696, ई-मेल र ग श्रण्यासाठा । आणि कंपनी अ

errous Industries Limited	
up Company	
ce: : 'One Avante', Level 5, Karve Road,	
11038, Maharashtra	
991PLC063223	

tice of Special Window for re-lodgement of transfer requests in respect of equity shares held in physical form

кirlosкar

In respect of equity strates test in physical form the Circular No. SEB/HO/MIRSD/MIRSD/MIRSD-Po/PC/01/2025/07 dated 2 July 2025 he Securities and Exchange Boen opened for a period of <u>six months from 7 July 2025</u> 2022b to foillation only re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior ne of Lapril 2019 and rejected / returned / notattenoidet o due to deficiency July 2022 to foillation only re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior ne of Lapril 2019 and rejected / returned / notattenoidet to deficiency July 2022 to foillation only re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior - cum-dematrequest. retrollers may submit their requests along with the requisite documents to le india Private Limited, the Registra and Share Transfer Agent (RTA) within the eriod at the address given below:

India Private Limited

shay Complex, Block No, 202, 2rd Floor, Off Dhole Patil Road, Near Ganesh Temple, Maharashtra

. @in.mpms.mufg.com Telephone No. +9120 46014473 / 26160084

	For Kirloskar Ferrous Industries Limited
ce : Pune te : 16 July 2025	-/Sd Mayuresh Gharpure Company Secretary
 Email: <u>kfilinvestor@kirloskar.com</u> Website: <u>www.kirloska</u> 	
"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or pref Kirloskar Ferrous Industries Limited	

				स्थावर मिळकत आहीर लिख जा.क/यसुली /स्थावर लिखा ने विश्वेष वसुली व विक्री अगि १९६० च अधिनियम १९६१ वे ज्ञानदीय को - ऑप क्रेडिट सोय संपर्क १७६९.३४१६.६२, ९५६ दिनांक ०५/०७/२०२५	व/२४५/स ग्रारी, महाराज गियम १०६ गायटी लि. मुं ११०००२३८	ष्ट्र सहयत्रपी संस्था) अन्दर्य अधियत्रर [बई शाखा केठगाव	प्राप्त,
करने या प्र आहे. जाहे.	म सर्व लोकांना कळविमेल येले की सित्ति संस्थेने मा. सहारपक निवंग माणपत्राच्यो व मला महारण्डू सह रया मिल्ल्करोंचा जाहीर सिलाय . - ज्यांना सदर मिळ्करा लिलावात पर्यंत भरपा करून समथ हजर रह	धक, सहकारी संस्था (परसे कारी संस्थांचा कापदा १९। त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल बोली लावून प्यावयाची अन	या) यांचेकडून महाराष्ट्र सहकार ६० चे कलम १५६ व अधिनियम या तारखोस सकाळी ११.०० वाप	ो संस्थाया कायदा १९६० ये व १९६१ चा नियम १०७ ये आफि रता ज्ञानदीप को–ऑप क्रेडिट	लग १०१ अ शर प्राप्त झान सोसायटी हि	ल्वये वसुली प्रमाण लेवरूल रवाची स्थ न. मुंबई शाखा येख	पत्र संपादन केले आहे बर निळकरा जत केले गांव बेथे करगेत बेगा
अ. क्र.	थकवाकीदाराचे नाव व पत्ता	दिगांक ०५/०७/२०२५ पर्यंत व्याज्यासह संपूर्ण कर्ज येने बाकी	सर्व्हे/गट क्रमांक	लिलाव करावयाची मालमत्ता तपश्चिल	एकूण क्षेत्रफळ	वाजवी किंगत	लिलाव करावयार्च तारीख
٩	डी, गमेश दलावय आखुटे पता- मु, पो. गावठाग निर्वी, ता. विलन, नि, पुरो डी. दतावय दिरामय आखुटे पता- मु पो. गावदाग निर्वी, ता. विलन, नि. पुरो	₹. 9,00,585/-	मौजे निर्मी, ता. शिसर, लि. पुणे, येथील नट क २९४/२ मधील ० हे २८ आर व पो.ख ० हे ०६ आर असे एक्कुम ० हे ३४ आर क्षेत्र	भी, दत्ताजय हिरामण आस्कुटे बांचे नावावरील मौरने निवी ता, शिकर कि, पुरो सेत्र बेसील गट क, २५४/२ मारील ० हे २८ आर व पोख ० हे ०६ जार असे एकुण ० हे ३४ आर क्षेत्र	० हे ३४ आर क्षेत्र	रु. १०,२०,०००	मंगळगार दि. ०५/०८/२०२५
सांक र. बं २. बं अग्र ३. म जमा ४. म भारम १. दि शिल्ल ताईह १. वि	1. फिरि करनेवा से सोत जर दे कहां कि उनका से कहां का का से कहा का सिकारण ने बात कहां का कहां के साम से कहा से कि साम से कहा कि सा से कहा कि साम से कहा कहा कि साम से कहा कहा कि साम से कहा कि साम से कहा कि साम से कहा कहा कहा कहा कि साम से कहा	तीसाउँ स. १०००/ – (गा. १ केल्सा रखा भग प्रायाका मार्ट आणि नियासाय्य मार्ट आणी ने प्राया है। आठे देशे आही प्राया है। या देशे के प्राया है। कि के प्राय प्राया ने प्राया का दि कि सार्टिया म्या प्राया है। ये कमेच्या १९ देखे की काम्या १९ देखे से कोन्या १९ देखे से कोन्या १९ कि सिंह से काम्या १९ काम्या १९ काम्या से कोन्या १९ काम्या १९ काम्या से कोन्या १९ काम्या काम्या से काम्या १९ काम्या काम्या से काम्या १९ काम्या काम्या से काम्या भाषा हो काम्या काम्या से काम्या भाषा काम्या काम्या काम्या काम्या से काम्या कार्या काम्या कारा काम	सरवावा) भरून प्राप्त करता केशी. ह चुतायासड जरी मिकार्ड/आग पुत्तायासड जरी मिकार्ड/आग पुत्तायासड जरी मिकार्ड/आग खारा स्वरंत्रमा चौकरेखा कर्ष्य है करेल्या अदल्य केशी करनी आत्र कर्या करण्यास ख्या दिक्री निशिव्त झाल्यानंतर नंतर विशेष बसुली व दिक्री आहित कार्य प्रकार मिल्ला का निक्रम निर्फल्याकारी नि हरेल. वानी पूर्व व्यूकी विश्वित विरुक्ष	ू – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	यक आहे. . कागदमजों त बोलीयार्च- तस बोली गंतर या नंतर म्हा केलली सुरह फ़्ल सकल्या नियम १९६ प्रमाणपत्रास । कोमलेही बं	यी रचयरंसाक्षाकीत ने मासमत्तेजिरुद् अ राने रजांचे दायीच । बोलीधारकांवर गर् कर्जे त्याच दिवशी का रक्षम जात केली ल त्याने परलेली १ १ जावस्थक ती रखें	प्रती लिलावाच्या वेळ सलेला कोमसाही दार देवेकराय प्रेमार्थ आहे राद दुई वेकराय प्रमाणे त्याच मरणा करावी, उर्वा जाईल आणि विक्री र प टक्के रक्कम जा केल क्वील तस्तुदी नुसार न ग्य बजुटी, नॉदली की
			\bigcirc		शेष वसूर्ल	ी व विक्री अधि	कारी, ६० चे कलम १५।

पुणे, गुरुवार, १७ जुलै २०२५ 🛙 🎗 🎗

तात सहुपार कालग स्वत्यनेता किंग्रे सुप्रे कालग के स्वतं के	1	जएम फायना।	न्शयल असट ारकन्स्ट्रव	शन कपना ।लामटड			
प्रातित मुनुन्ना का वहार २३०१३ अलंग अध्याप्तव पर कम आगे पुशिक मर्जेण्या प्रति मुनुन्ना का वहार प्रथम स्वर्भनाव किर्णे प्रति प्रात्म किर्णे प्रति के प्रति में प्रति मित्रमा स्वर्थि के प्रति में प्रत में प्रति में प्रति में प्रत में प् त स्वरते प्रत में	JM FINANCI	AL कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक	: U67190MH2007PLC74287				
काले बच्चतुः 2002 और विश्ववार विश्ववार प्राप्त काल असी पूर्वता कर प्राप्त विश्ववार प्राप्त कि विश्ववार प्राप्त कर विश्ववार विश्वव विश्ववार विश्ववार विश्वव वार्ववार विश्ववार विश्वव विश्ववार विश्ववार विश्वव विश्ववार वारवार वारवार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववार विश्ववा वारवार वारवार वारवार वारवार विश्ववार वि							
तात वातुरात प्राथम स्वात्मी-ता विकोटिक पर मानि पूर्वपूरी जर्मना कर्वाल्या की को को रागी लिल्ला के प्राण्य में स्वात्म कर्वाल्या के को को रागी लिल्ला के प्राण्य में स्वात्म कर्वाल्या के को रागी लिल्ला के प्राण्य में स्वात्म कर्वाल्या के को रागी लिल्ला के प्राण्य में स्वात्म कर्वाल्या के प्राण्य में स्वात्म कर्वालया कर्वालय कर्वालया क्वर्य स्वात्म कर्वालया कर्वालय क्वर क्वर स्वात्म कर्वालय क्वर कर्वालय क्वर क्वर प्राण्य में स्वात्म कर्वालय कर्वात्म कर्वालय क्वर क्वर मात्र कर्वात्म कर्वात्म कर्या क्वर क्वर कर्वात्म क्वर क्वर कर्वात्म क्वर क्वर कर्वात्म क्वर कर्व क्वर क्वर कर्वात्म क्वर क्वर क्वर कर्वात्म क्वर कर्व कर्व क्वर कर्व क्वर क्वर कर्वात्म क्वर कर्व कर्व क्वर क्वर कर्व क्वर क्वर	जाहीर सूचना						
सार- करवेशा, आसी-पर्श (15-07-2023) सार के प्रेर के प्रे	मरोनी बारव, 2022 ओर्गर अभिकारंभ बारा करन आगे गुर्गेश उन्हेंभा नुमार्श्वे केल कस्य आपि स्विम्वंद्राता प्रविष्ट्रव अभिकारणे पेठलेला शंडफुरा उन्हा तथा सुराय प्रायम स्वान्सेला किओर्ज्या भा क्रेसे मुर्थेक्षी त्रान्तित कवर्यनाता देशे और नोगति लिताल सेवानकी वेधविय प्रियेग्ड आंध्यार सेवें पा केले किस मुंहित लावला सानेकी व्यवार्थने व्यवार्थ कि राज्या देशियां प्रवित्र केले किय प्रायेगडाल्या नात्रोक आपि विशेषा उन्होंने सुराय देशियां कार्य के बार्ज के प्रति विश्वार्थ केला के स्वान्त के प्रायम विश्वार से स्वान्त के स्वान प्रायेगडाल्या नात्रोक आपि विशेषा उन्होंने सुराय देशियां के उन्हें के प्रायम किस स्वान्ध केला के प्रति क्रियों का						
विश्लमेशी (पहुना), समार ठेललीली 20 30,24,004- (१, सी. पहुना हुने 20,24,97,24,197,25,1							
शिवरेचाई (२४८८), प्रथम), देवाकी हैन्दी, २, 20,24,504/, (९, चीप तामु - क्लाइ - क्लाइ - स्टार्ट, 4.02, दिंग , जैरी मा मान कुण्णोत्शारण्य करना, भारते व्यक्त से प्रारं करें प्रारं कर प्रकार के प्रारं क्लाइ क कार क्लाइ क	विववेवाडी (शाखा), माक्स टेक्नॉलॉजीज (कनंदर), नोलेप्त प्रयोग जैन (स्ट्र कनंदर	रु. 20,24,004/- (रु. वीस लाख	र्तुकटे :- फ्लॅट क्र. 202, ए विंग, दुस्स मजला यट क्र. 196/197 कृष्ण पॅराडाईन मौने कापार	शहाण्णव हजार (क्षेत्रो सहासद्य फल्ड.)			
वडीच्या तपसीलवर अत्री आणि सर्तीसाले, कृपण <u>https://www.imfinancialarc.com/Home/Assets</u> for sale किंव्य <u>https://www.bankauctions.i</u>	सित्रवेवाडी (शाखा), माक्स टेक्नॉलॉजोज (कलंदार), नीलेश प्रवीण जैन (सह कजंदार	फ. 20.24,504/- (फ. बीस लाख	ं- फर्सट क्र. 402, विंग ए, चौथा मज़ला कृष्णा पंराहाईज पिरंगुट, गट क्र. 196/197 मुख्ल्मी, मौजे	शहाण्णय हजार सहश्रे सहसंह फक्त)			
१९४४ (१८९९९) १९१७-४४, १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४	पथ्ये दिलेल्या लिंकचा संदर्भ प्या.						

(3) अत्र वक आएत बडादा पाकण, चाकण, चाक	आय पिंपरी शाखाः उ तालुका खेड, जिल्हा पु :९२५ ई–मेलः ssipir	गंबेठाण चौक, गे – ४१० ५०१ १@bankofbaroda.com
परिशिष्ट – 9– मालमत्ता सोडबून घेण्यासाठी सू सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या रूल ६(२) ः रंदर्भ क्रमांक : SSSIPIM/NPA/2025-26		
ति , 1. सुभित्रा निलेश येवले आणि श्री. निलेश शिवाजी येवले, दोपेही राहणार : हिवासी पत्ता : १) पलॅंट नं. २०२,माधव कुंज बिल्हींग, सीटीएस नं. २३०, व रिपर, पीलीएम्सी, चुगे) पलॅंट नं. १३०६, विंग बी, ३ रा मजला, मंत्रा मोमेंटस, बोन्हाडेवाडी, मोशी, तात	-	स्कृतिक 'मवनजवळ, चिखले
iदर्भ : दि सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शिअल ॲसेर १००२ (सरफेसी अवट, २००२) मधील सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूत केंवा रूल ८(६) अनुसार सूचना.		
र्बिम :- १. सरफेसी ॲक्ट २००२ मधील सेक्शन १३(२) अनुसार दि. ०६/०४, २. सरफेसी ॲक्ट २००२ च्या सेक्शन १३(४) अनुसार दि. १९/०३/२० ग/ श्रीमती	'२०२१ रोजी जारी करण २९ रोजी जारी करण्या	धात आलेली मागणी सूचना. त आलेली ताबा सूचना
(से भी, बेल ऑफ कडोत, रास्तराख्या पिंची शासा, आंसवाय बांक, खाळा, प्रत्य हाला सारके सीख उत्तर प्राप्त हेवळे उठा २००२ मधीत करला (याप्ट्रेड वेळ्रेड करला) 3 उच्चार एप्लार्थसीट) जल्ता २००२ मधीत करला (याप्ट्रेड वेळ्रेड करला) 3 उच्चार एप्लार्थसीट) करला २००२ मधीत करला (याप्ट्रेड वेळ्रेड करला) 3 उच्चार प्रवार्ध करीं के विश्व करां होते के उत्तर उत्तार करते हैं। उत्तार वेल्रा का वेजी ती सार स्थार सुप्रत्य का करते ही कर (याप्रेड वेळ्रेड करां दें) के उप्तार करते करते ही कर (याप्रेड वेळ्रेड करां दें) के उत्तार वेल्रा स्थान करते होते कर (याप्रेड वेळ्रेड करां के व्या के वेल्रा क्यां कर करते / गाँ, वेल्रा क्यां का वाणा सार कर आते / विश्व कर वेल्रा के व्यां कर (याप्रेड वेळ्रे का विश्व करां हो के व्यां के व्यां करां के विश्व कर सारकारा) ज्यांचा दुसंह विशेषकर पुर्वेकी वों होते तरहे व्यां के वाले के व्यां वा विश्व करां हो के विश्व कर सारकारा जे व्यां के दिया कर वाजी तरहा (याप्रेड वेळ्रे का विश्व करां करां कर (यार्ग कर करते / गाँ, विश्व वे वार्व सारकारा वार्य कर्ष अंकी / विश्व कर वारकारा जे वेल्रा के विश्व कर सारकारा जे वार्य वेल्रा के तिवा करा विश्व के वार्व से वों करें की तरह वुद्ध की करते के तरहे कर प्रतिकार वार्व सुप्र क्यां ही विश्व करा वार्य सुप्रत करा के तिवा कर वार्य सुप्रत के तरहे कर प्राप्त के वेल्रा तो के व्यां के स्था र वार्य स्था सारकार देवां के तिव करा वार्य सुप्रत के तिव करा ता वार्य संध के करा के तरह वुद्धि सिंद २००० योंग लेक्स कराय ते वेल्य के सिंद स्था सारकारों का सारवाया सारवर्त वेला कराया ते वार्य के सिंद स्था सारकार वेचा ता विश्व के विष्य ते वारव संख्या ही का व्यां वारव स्था ही के त्यारव वारव संख्या के वेल्य के तारव संख्या के त्यां के त्या स्था सारकार वेव्या के ते ते ते के ते कराया ते वार्य के ते वार्य कराया ते त्यां के ते ते करा के ते ते ते के वेल्य ते वारव के ते ते व्यां के व्यां ते त्या ते के ते करा ते वारव कराती कराया ते वारव ते ते ते करा के त्यां ते ती करा करा ते त्यां के ते के ते करे ते वारव करा ते ते करा के ते ते ते के के ते करा ता वारव करा ते ते करा के ते ते ते करा के ते ते ते करा कराया ते त्यां के ते करा कराया ते त्यां के ते के का के ते करा के ते ते करा के ते ते ते के के ते करा कराया ते ते करा के ते	/२ आणि त्यासह वाद ए प्राप्त आलेत्या अधिक इालदापर, जामीनदार अद बाली सही करणार यांनी देवारा करण्यात आला आ हो भू सूचनेत नमुद करण्यात उपलब्ध असलेल्या मुद ताराईपामून ३० दिवासा , क्रिमत, आकार आणि , क्रिमत, आकार जाणि	ने जाणारे सिक्युरियी इंटरेस्ट रारोघा वापर करून आपणार राल्यामुळे आपण आपणार इंसावर ऑक्टचे सेक्शन 9.2(४) हामातगर असतेव्या सुरक्षित हे त्या मालमत्तांचा ताबा घेतल आलेल्या येणे बाकी रक्षमेर्य गीष्या संदर्भात सदर सरफेर्स च्या आत सदर सूचनेत नमूट् वर्ष यासह बेंगेल परल करू
अ. जगम/स्थावर मालमत्तांचा तपशील	ताब्याची तारीख व ताब्याचा प्रकार (प्रतिकात्मक/प्रत्यक्ष)	ताब्याच्या पेपर प्रसिध्दीची तारीख (फक्त स्थावर मालमतेसाठी)
१ रहिवासी फलॅट नं. २०२, २ रा मजला, माधव कुंज बिल्डींग, डेल्टा रचना प्रोजेक्ट, सीटीएस नं. २३०, बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनजवळ, विखली परिसर, पीसीएमसी, पुणे	<u> १९/०३/२०२५</u> प्रत्यक्ष	29/03/2024
, गपले विश्वासू गविककुमार पटेल, अधिकृत्त अधिकारी		

प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L27101PN1985PLC038031 नोंद, कार्यालय: प्राल टॉवर स.क्र. २७४ व २७५/२, मूसकर सोळ – हिंजबरी सेठ, हिंजबरी, पुणे – ४११ ०५७, इंमेरा : investoriseloalcak@prai.net; संकेतस्थळ: <u>www.prai.net</u> फोन: 020 71802000

प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) थ्या ३९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेविषयी माहिती (व्हिडिओ कं ऑडिओ व्हिडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हिएम) द्वारे आयोजित)

আগ্রস্যা নেতৃত্বসা নতুত্বসা নতুত্বসা নতুত্বস্থা নাম বিপেছেখেয়) য়াৰ কামানেয় দ্বাই মুখিৱ কৰতমান হাঁ কী জন্দী আদিবিদ্য , ২০৭३ আ জন্দান বোধা কৰতমানে জনিব্যা দিনানাম্য বাদ্যমান খলাখা দু নন্দুৰ্বাৰী ঘালল কনাঁন জাঁহি হৈ পহু মন্দেইৰ, ২০২৪ খ মানাম্য যদিহস্ক জ, ৫০/২০২৪ (দেনেই ঘনিয়ন্ত্ৰজ) জাটি ক্যুবিত্রিস এঁর হেম্বর্শ্বন বাঁর জাঁহ হির্রা। (মিরী) চ্যা হি, ३ আঁহবেং, ২০২৪ গাঁর্সী যদিবস্ক লঞ্জান মনা সাম হরন্টুস गद्वारे सूचित (मधुराराज अंड ऐरस्पर्थ पाऊ कोश द्वारुवा (भधा / आ तः २ जायराज्ञ, २०२४ ताजां भागन्त्र) राजा भागा आग इस्प्रेश किस्टिंड (केसी) (खिल्माकॉसीसी (देशी) वार्षिक संसंधाया क्या (उत्तेम्) सोमवार, दि ११ औरंस्ट, २०२१ सेवी त. १०,०० पाराजा दिदिको कॉन्सर्तनींग (देशीन) किंस हरार हुम्भाव्य पद्वतीनी (कोएस्ट्रीपन) येगात देवंत, या वायरावारंदी देसे कार्याक्र अंटारी किंस विप्रितिश पार्टीमोडक सेविकी आहेत का वायराव्यत्ती पार्ठीम थी पुल्ला आगि २०२४ –२१ या आर्थिक बर्गाया वार्षिक अहवात मंगळवार, दि १५ जुलै, २०२१ रोजी हलेक्ट्रीनेक पद्वतीने पाठकियात आलेता आहे.

सदर पत्र अशा सदस्यांना पाठविण्यात येत आहे ज्यानी त्याच्या ई-मेल आयडीची नोंद संबंधित रजिस्तुर व तुन्सफर एजट (आरटीए किंवा संबंधित डिमॉझिटरी पार्टीसिपट यांच्याकडे केलेली नाही, आणि ज्यामध्ये आधिंक वर्ष २०२४–२५ साठीचा वार्षिक अहवात भाग । भावता क्यांस्टा चाटात्मट पाव्याक्र प्रश्ला गांहा, आंग प्रयापक आपके पर २२२०२२ ताठावा पात्म प्रसार प्राहण्यासादी बेन्द्र सिंह प्रदान करप्यात आलेली आहे. जोरीएमरी सुचना आणि वार्षिक ब्रह्वाल कंपनीच्या वेबसाईटवर <u>www.prai.net</u> वेधे तसेव एमयूएफर्जी इनटाईम इंडिया प्रायहेट

(भोगिया पूर्वन) जोना सांसक अदेशत करनारावा संसाहतर <u>WWX-1181,018</u> यहा न तमेर प्रसूरको हारदोन होडला उनवेद किंगिंटेड का बेस्टाइन्ट<u>ला मिळा तीवाडप्रकली किंगोला कटाता, वि</u> स्थेवी उस्सव अकत ने प्राया जाखेता जातुं जा वासासदोना प्रणीसपो पूर्वन। जोने वीशिक उदावान प्राप्त सालेला नहीं, होनी तो कैंपनीच्या क्रेस्टोक स्वार्ट करने डाऊनतोड करने प्राया, कंपनी जीरिमीस-1, 2013 मांदीज कुंप्रुप्टे प्रेश्न जीवा कार्याता सालेले साही, होना के स्वार्ट करने प्राया, केंद्र साह करने किंगरपोर्ट्या के प्रार्थ करने करने करने किंग किंग का प्राण के सी किंग्रिक रोज के स्वार्ट के स्वार्ट किंतवरोत्तर किंगरपोर्ट्या मेर्या के प्रति केंद्र प्राप्त के प्राप्त करने कर किंग के स्वार्ट करने के किंग्रे के स्वार्ट के स्वार्ट करने के क्रांक साह किंतवरोत्तर किंगरपोर्ट्या के प्रति करने प्राप्त प्राप्त के स्वार्ट करने के स्वार्ट के स्वार्ट के किंग्र के स्वार असरित 2014 हा किंग सर्वत साहित्य के प्राप्त 2014 मां सात्र साह साहमा को के साहन के क्रांक दिनके क्रमूल निर्वित के का कर, कर तो 31 व्या वार्कि सर्वतायारण सभेत मानायाखाने में जुर केला सर

जर तो ३१ थ्या वार्षिक सर्ववाधारण सभेत भाषापालोंनी में पूरे केला तर. कली (यास्त्राधाल में प्राप्तान) निया - २०१४ सादिन निया २० व्या वाजवात वेगाचा काली अधिनिया, २०१३ मार्डेल अनुच्छेत १०८ मधील तरतुही आणि सेवी (लिलिंग ऑस्टोरेक्स अँढ डिस्टलोजर विडायरलॅंट्स) रेप्युलेकन्स, २०१५ मधील नियम ४४(१) य्या अनुपोनाने केपनील कट-कॉफ दिलोक्स (एकाजे दे, ४ ऑगस्ट, २०२५ ने दोगे) मूर्व किया अनुने रवस्थात सम्माना धारण करि अल्लेस्वा आपला सामर्पतां प्राप्तुराजी हार्टमाई क्रीड आयहरे दिलीडेर या मारवार मार्जालयां वापालिया प्राप्तापाल उप बूस्टनेना नमूद वेजेल्या व्यासवांत्र प्राप्ता साने प्राप्ता स्थान प्राप्ता दिलीड प्राप्ता स्वार मार्जिया स्वाप्ता इस्टनेना नमूद वेजेल्या व्यासवाजतील सर्व वार्थान्ड अन्त्र साने देवापी खुविधा उसलय राजन देव्याता जाती आहे. यामुळे सर्व समासदाना याद्वारे सूचित करण्यात येते की;

- रथानुक सम समामदाना आद्वाद प्रयुत्त वरण्यात वत का? 9. एजीएमदया सुस्तेत नमुद्द सामान्य आणि विशेष कामकाजवार हलेवद्वनिक पद्धतीने मतदान केले जाईल. 2. ज्या समासतार्व ईमेल अंद्रेल आदर्प द्विजीसिंडली पार्टीसियटकडे नॉवविसेले आहंत त्याना ३१व्या वार्षिक सर्वसाधरल समेघी (पजीएम) सूरमा आणि दूरस्थ ई–मतदानासाठीच्या सूरमा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ईमेल) पाठविष्यात आलेल्या आहेत.
- ३९व्या एजीपमसाठी रहीसी सुविधा एमयुएफजी इनटाईम प्रायल्टेट लिमिटेड द्वारे उपलव्ध करून देण्यात येईल.
 इरस्थ ई–मतदान गुरूवार, दि. ७ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भारतीय प्रमाण बेळेनुसार सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल ;
- ५ दूरस्थ ईं-मतदान रविवार, दि. १० ऑगस्ट, २०२५ रोजी साय. ५.०० वाजता समाप्त होईल आणि त्यानंतर ते उपलव असणार नाही. ξ,
- अस्ताल मही. . इतेनद्वनिक पद्धीने नायदानासाठी अर्हता निश्चित करप्यामाठी कट-ऑफ दिनांक सोमसार, दि. ४ ऑगस्ट, 2024 उंजी कामराज संस्थायी सेक प्रांव परप्यात येईल, एसीएन घी खुरना आचि वार्षिक अख्यान पाठविष्यासाठी कंग्नीहारे 94 जुझे, 2024 हा दिस्त लिखित करप्यात आलेता डाहे, 94 जुझे, 2024 रोजीनंतर कंगनी संभायत देखाया आलि जिल-जॉफ निजिवेस स्वल्वे सोमसार, दि. ४ ऑगस्ट, 2024 रोजी समापा प्राप्त करांते अस्त्रीना कंगनीगा <u>www.prained</u> येवील बेस्साई/टक्सन एजीएम ची सूचन आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त करता येईल. ट्रियात देखे आणी सिडीओ कॉन्यलानिस्वाया मायमातून सार्पल उपसित होमाया आप सामस्त्रनी दूरस्थ ई-मतदान केसके नसेल लांत केकड ई-मतदानाया मायमातून एजीएम सुरा असाना माउनन करता येईल.
- ्जीएमच्या अमेदर दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करणाऱ्या तभातदाना विडिंडेंगे कॉन्फरनिताच्या नाधयमातून एजीएमध्ये उपस्थित होता देदेत, खेंदु त्यांना एजीएमध्या दिनांकाल पुरुष मावदान करता येगार नाही. उपरा माध्याउलना (जीपनमप बेलादा के द्वाहि किंग कारी क्ष किंपटाके वसलीत लागी क्यों न वहीं में 20 अक्षजेद, प्रोतिको, मोबाहेल नें, स्ववट) केमनीकडे बुधतार दि. ६ ऑफट, २०२५ धर्मते <u>investorsfeedback.80.001.08</u> येवे गॉवको आवध्यक आहे. ζ,
- १०.ई–मतदानाशी संबंधित काही प्रश्न असल्यास आपण https://in.mpms.mufo.com/website/Gogreen/2025/AGM/

ूर-मादोग्वेशा राज्यात वाहा अञ्च अत्यत्यात जाला माह्युआगामुहाम्आधात्र commencing acquirent cocore PEAL INDESTIES LTDPermote F-Voing Instructions InstaVolev R.a.god गे थे वाराज्य उत्सर्वत सगममाधारकासारी ई-संतरान युजर मॅयुअल चा संदर्भ व्यावा किंवा ०२२-७९१८ ६००० वर सर्फ साधावा किंव enotices@in.mpms.mulg.com येथे विनंती पाठवांवी. प्राज इंडरदीज तिमिटेड करिसा प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता



स्थळ : पुणे दिनांक : १७ जुलै, २०२५